



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16—फरवरी 22, 2013 (माघ 27, 1934)  
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2013 (MAGHA 27, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2013

वित्त प्रभाग

सं. 52, दिनांक 16 जनवरी 2013—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1979) की अधिकारी श्रीमती शोभना जोशी, को दिनांक 26 दिसम्बर 2012 के (पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय (वित्त) में वित्तीय सलाहकार (अधिग्रहण) एवं सदस्य (रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड) तथा अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं

रवि कल्याण

सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था)

सेना सचिव शाखा

सं. 53, दिनांक 16 जनवरी 2013—राष्ट्रपति सहर्ष (आईसी-34775) मेजर जनरल रवि थोडगे, एबीएसएम, एसएम, वीएसएम को 1 जनवरी 2013 से "1 गोरखा राईफल" के कर्नल आफ दी रेजीमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं

पी के पटनायक  
निदेशक/एमएसएक्स

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 54, दिनांक 17 जनवरी 2013—सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख से दी गई अवधि तक अथवा सेवानिवृत्ति अथवा नियमित पदधारी मिलने तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं:—

आई सी शर्मा, 14 जून 1955, 01 अप्रैल 2011/31 दिसम्बर 2012

एल वैद्यनाथन, 08 जुलाई 1953, 01 अप्रैल 2011/31 दिसम्बर 2012

एस सी गर्ग, 03 जुलाई 1955, 01 अप्रैल 2011/31 दिसम्बर 2012

सुखबीर सिंह, 19 अगस्त 1954, 11 जुलाई 2012/02 नवम्बर 2012

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर की गई है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

तदर्थ नियुक्ति के आधार पर ये अधिकारी उपर्युक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। अनुभाग अधिकारी के ग्रेड

में तदर्थ आधार पर की गई सेवा इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता एवं अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी।

अभय सिंह  
उप मुप्रअ (प्रशा)

-----  
सेना सचिव शाखा

सं. 55, दिनांक 17 जनवरी 2013--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगे के मूल रैंक में

(आईसी-39258) कर्नल के एस श्योरण, कुमाऊँ, 17 जून 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39067) कर्नल एस के अहुजा, पंजाब, 03 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39444) कर्नल चन्दर कान्त सूद, ईएमई, 01 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39454) कर्नल एस के थापा, एसएम, पैरा, 14 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39484) कर्नल हरचरण सिंह, वीएसएम, मद्रास, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39582) कर्नल एम एस बिष्ट, एओसी, 11 नवम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39600) कर्नल एस सी डब्ल्यू घाटपांडे, 9 जीआर, 14 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39655) कर्नल एच जोनेजा, 8 जीआर, 14 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39922) कर्नल पी सक्सेना, असम, 14 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-39940) कर्नल जगतबीर सिंह, आर्म्ड, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40005) कर्नल जे के बंसल, सिग्नल्स, 20 सितम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40202) कर्नल एस के सिंह, राज राईफल, 01 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37865) कर्नल एस सुरेश कुमार, मद्रास, 01 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37819) कर्नल एस पांडे, एओसी, 11 नवम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40200) कर्नल राजीव शर्मा, आर्टी, 05 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37869) कर्नल पी के गंजू, एएससी, 01 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37882) कर्नल दिलीप सिंह, एओसी, 11 नवम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37886) कर्नल अवतार सिंह, सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37892) कर्नल अश्विनी कुमार, वीएसएम, एवीएन, 01 अक्टूबर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37922) कर्नल जे एस अरोड़ा, आर्टी, (जीसी), 11 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40290) कर्नल बी बक्शी, वीएसएम, इंजीनियर्स, 09 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40291) कर्नल ए उप्पल, आर्टी (जीसी), 11 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40293) कर्नल ए एस क्लेर, आर्म्ड, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40295) कर्नल ए के सपरा, इंजीनियर्स, 30 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40299) कर्नल संजय वर्मा, ईएमई, 30 अक्टूबर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40302) कर्नल आर पी सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 01 जून 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40303) कर्नल एम पी एस मेन्डोन्का, आर्टी, 11 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40306) कर्नल सुनील गुप्ता, ईएमई, 01 नवम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40314) कर्नल सी पी मोहन्ती, राजपूत, 05 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40324) कर्नल आर के सिंह, वाईएसएम, पैरा, 05 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40326) कर्नल अनिल पांडे, पंजाब, 05 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40328) कर्नल एन कुमार, गाईस, 05 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40330) कर्नल एस एम सिंह, जैक रिफ, 05 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40331) कर्नल एस सी शरण, आर्टी, (जीसी) 10 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40340) कर्नल पी पी डेविस, एएडी, 01 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40346) कर्नल सी भारती, एससी, इंजीनियर्स, 01 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40353) कर्नल परमजीत सिंह, एसएम, पैरा, 05 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40359) कर्नल ए के गोयल, पंजाब, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40360) कर्नल ए बी मिस्त्री, वीएसएम, मराठा लाई, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40362) कर्नल ओ पी सिंह, 1 जीआर, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40363) कर्नल एन जे जॉर्ज, गढ़वाल राईफल, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40364) कर्नल राजेंद्र प्रसाद, वी एस एम, डोगरा, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40366) कर्नल आनन्द सिंह, एसएम, सिख लाई, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40373) कर्नल कवलजीत सिंह, एएडी, 15 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40374) कर्नल के ए महाबीर, कुमांक, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40378) कर्नल बी वी राव, इंजीनियर्स, 18 दिसम्बर 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40380) कर्नल के जे एस गिल, गाईर्स, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40382) कर्नल अरविन्द दत्ता, डोगरा, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40385) कर्नल के बी के केशव, सिख, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40393) कर्नल जे के शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री, 01 जून 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40395) कर्नल एन बालन, महार, 08 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40399) कर्नल दिनेश शर्मा, वीएसएम, इन्ट, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40405) कर्नल एस पी एस औलख, एएडी, 03 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40408) कर्नल सी मनी, सिग्नल्स, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40411) कर्नल एम श्री कुमार, सिग्नल्स, 01 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40412) कर्नल सुबोध कुमार, एएडी, 01 अगस्त 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40421) कर्नल एस के भनोट, राजपूत, 10 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40428) कर्नल एस एस रत्नपारखी, सिख लाई, 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40435) कर्नल जी वी जी प्रसाद, आर्टी, 10 जनवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40445) कर्नल जे एस गुलाटी, एओसी, 01 फरवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40446) कर्नल एच एस फौजदार, पंजाब, 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40471) कर्नल मुकेश कुमार, गढ़वाल रिफ., 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40824) कर्नल अजय सेठ, गढ़वाल रिफ, 16 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40487) कर्नल वी एस धेमान, एएडी, 01 अगस्त 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40500) कर्नल वाई के जोशी, वीर चक्र, जैक रिफ, 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40508) कर्नल एस के सावहने, जैक लाई, 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40534) कर्नल एम एन भुर्के, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40542) कर्नल वी वी रेड्डी, इन्ट, 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40548) कर्नल सोबन सिंह, एसएम, 5 जीआर, 06 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40568) कर्नल के उमामहेश्वर, आर्टी (जीसी), 04 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40590) कर्नल जे चौधरी, सिग्नल्स, 01 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40597) कर्नल विपन गुप्ता, एससी, 09 फरवरी 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40600) कर्नल वाई एस कुमार, आर्टी, 01 अगस्त 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40617) कर्नल एस के शर्मा, एओसी, 01 फरवरी 2011 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40623) कर्नल पी के सिंह, आर्टी (जीसी), 04 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-42241) कर्नल आशीष कुमार, ईएमई, 01 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37930) कर्नल एस के वर्मा, जैक लाई, 01 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37931) कर्नल नवनीत कुमार, कुमाऊं, 19 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37934) कर्नल वी डी चौगुली, वीएसएम, पंजाब, 19 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37937) कर्नल वी आर नेवरेकर, आर्टी, 01 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37977) कर्नल ए उमर फारुक, सिग्नल्स, 01 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-37993) कर्नल संजोय सोई, नागा, 19 मार्च 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 21 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40679) कर्नल ए के सान्याल, आर्मड, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40680) कर्नल पी एन राव, एसएम, पैरा, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40682) कर्नल ए एस कार्कि, मैक इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40685) कर्नल आर शुक्ला, आर्टी, 07 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40689) कर्नल आर एस कोच्चर, ईएमई, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40693) कर्नल एस के पाणीग्रही, आर्टी, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40699) कर्नल केम्पराज एस, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40700) कर्नल एस थापा, आर्टी (जीसी), 07 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40702) कर्नल ए तलवार, मैक इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40703) कर्नल हरपाल सिंह, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40707) कर्नल डी एस गिल, आर्टी, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40710) कर्नल एस मेहता, 11 जीआर, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40714) कर्नल बी जी गिलगंजी, सिग्नल्स, 01 अप्रैल, 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40716) कर्नल एम सी पांडे, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40720) कर्नल एस शर्मा, डोगरा, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40721) कर्नल प्रीथी सिंह, 1 जीआर, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40722) कर्नल कुलप्रीत सिंह, आर्मड, 01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40724) कर्नल आर एस पठचिया, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40727) कर्नल आर के चौधरी, बीएसएम, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40736) कर्नल एम के मुखर्जी, आर्टी, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40744) कर्नल एस थापर, सिक्ख लाई, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40749) कर्नल पी एस पनेसर, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40750) कर्नल एम श्रीनिवासन, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40755) कर्नल एस प्रताप, सिक्ख लाई, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40757) कर्नल वी साहनी, एसएम, 4 जीआर, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40760) कर्नल वी एस श्रीनिवास, बीएसएम, गढ़वाल रिफ, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40777) कर्नल एम एस जसवाल, एसएम, राज रिफ, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40783) कर्नल वी के एच पिंगले, एमएलआई, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40787) कर्नल आर के सुब्रमनी, ईएमई, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40792) कर्नल डी ए चतुर्वेदी, एसएम, 3 जीआर, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40794) कर्नल वी एस नारंग, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40795) कर्नल एस नारायण, राजपूत, 11 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40796) कर्नल आर पी एस संधु, एसएम, जाट, 16 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40800) कर्नल वी डी अब्राहम, एसएम, ईएमई, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40801) कर्नल आर के बंशीवाल, इंट, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31 जनवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40804) कर्नल दिग्विजय सेतीया, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40812) कर्नल पी एम वत्स, मेक इंफ, 01 नवम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40815) कर्नल अनुप भाष्कर, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40818) कर्नल आर एस मान, मेक इंफ, 01 नवम्बर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40822) कर्नल एस रामाकृष्णन, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40825) कर्नल जे सी रांगरा, महार, 16 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40826) कर्नल एस के तिवारी, इंजीनियर्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40841) कर्नल ए ए भट, सिग्नल्स, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40853) कर्नल एस चक्रवर्ती, एएससी, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40861) कर्नल संजय प्रसाद, ईएमई, 01 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40864) कर्नल एस डी वाजे, एमएलआई, 16 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40867) कर्नल के जे एस धालिवाल, एसएम, एएडी, 01 अक्टूबर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40869) कर्नल आर सी द्विवेदी, पंजाब, 16 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40873) कर्नल आर नागराज, सिग्नल्स, (जीसी), 22 जून 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40876) कर्नल एस पचौरी, महार, 16 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40882) कर्नल जे के तिवारी, एससी, 5 जीआर, 16 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40884) कर्नल ए एस हरगे, असम, 19 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40889) कर्नल एन के उन्नी, सिग्नल्स, 22 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40901) कर्नल के मेन्डोन्का, एएससी, 23 अप्रैल 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40904) कर्नल के एस निज्जर, आर्टी, (जीसी), 22 जून 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40933) कर्नल एम वी चन्द्रन, वाईएसएम, एसएम, असम, 19 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40934) कर्नल ऐ के शर्मा, गढ़वाल, रिफ, 19 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40948) कर्नल के आर प्रसाद, आर्टी, 01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40966) कर्नल एस सुरी, एएडी, 01 अक्टूबर 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40974) कर्नल पी पी सिंह, एएससी, 01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40981) कर्नल नरीन्दर सिंह, 4 जीआर, 21 जुलाई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-40982) कर्नल जी एस औल, आर्टी, 01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-41004) कर्नल रमन माहना, एएससी, 01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-41025) कर्नल टी एस ए नारायण, ईएमई, 01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 फरवरी 2009 से दी जायेगी

(आईसी-42698) कर्नल एस राजाराम, सिग्नल्स, 01 मई 2010 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 फरवरी 2009 से दी जायेगी

ए चन्द्रशेखर  
निदेशक/एमएस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 56, दिनांक 18 जनवरी 2013--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल से बिग्रेडियर (व समकक्ष) के पद पर

एन लाम्बा (एमआर-04731एल), 13 दिसम्बर 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 फरवरी 2012 से दी जाती है

उपर्युक्त अधिकारी का पूर्व राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01 सितम्बर 2012 एतद्वारा रद्द किया जाता है

लेफ्ट कर्नल से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

एस विश्वनाथ (एमआर-06307एफ), 20 जून 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 26 फरवरी 2011 से दी जाती है

मिहिर गुप्ता (एमआर-06150एम), 17 जून 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2011 से दी जाती है

रजत शुक्ला (एमआर-06151पी), 17 जून 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 अप्रैल 2011 से दी जाती है

एन श्रीधर (एमआर-06281एक्स), 20 दिसम्बर 2011, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 सितम्बर 2011 से दी जाती है

राजबीर सिंह

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मासं)

सेना शाखा

सं. 57, दिनांक 18 जनवरी 2013--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्ट कर्नल

(00184) अनुपमा दलाल, एओसी, 24 अगस्त 2010

विहग स्नेहल

उप निदेशक

एमएस-8 सी

सं. 58, दिनांक 21 जनवरी 2013--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

स्थाई सेना

पैदल सेना

लद्दाख स्काऊट्स

सूबेदार मेजर (आरटी) के पद पर

सूबेदार (आरटी) जय्यांग सुल्लिम (जेसी-164337वाई), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार (आरटी) के पद पर-डायरेक्ट एंटी

नायब सूबेदार (आरटी) अब्दुल जलील पी (जेसी-588594एच),  
09 जुलाई 2011

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जायेगी)

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (आरटी) भागीरथ (जेसी-161908एफ), 07 मई 2012\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी)

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (आरटी) नजरूल हक (जेसी-579048पी), जैक  
राईफल्स, 18 जून 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (आरटी) सुनील कुमार तिवारी (जेसी-579047एम),  
जैक राईफल्स, 17 जून 2012\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

रिक्लूट (आरटी) घन श्याम शुक्ला (सं. 3003810डब्ल्यू  
जेसी-581400एम), 04 फरवरी 2012

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (जीडी/लिपिक) के रैंक में

हवलदार राज कुमार प्रसाद (सं. 4269794एच अब  
जेसी-560776ए), 01 अगस्त 2012/27 अप्रैल 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 27 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर लुकस सांगा (सं. 4271162एक्स अब  
जेसी-560777एच), 11 जुलाई 2012/01 जून 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2012 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार नित्या नंद नायक (सं. 4271382एफ  
अब जेसी-560778एल), 11 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार अवधेश पाठक (सं. 4268982वाई अब जेसी-560779एन),  
01 अगस्त 2012/01 फरवरी 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2012 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर सुदामा पाठक (सं. 4268853वाई अब  
जेसी-560780एच), 01 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार एडवेंट मिंज (सं. 4269712डब्ल्यू अब जेसी-560781एल),  
01 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र कुमार सोय, सेना पदक (सं. 4271308ए अब  
जेसी-560782एन), 01 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर काशी नाथ महतो (सं. 2484390डब्ल्यू अब  
जेसी-560783डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार पृथ्वी राज चौहान (सं. 4269849एच अब जेसी-  
560784वाई), 01 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) विरेन्द्र कुमार राय (सं. 4269924एफ  
अब जेसी-560785एफ), 01 अगस्त 2012/14 जुलाई 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 14 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) प्रेम कुमार (सं. 4269633एफ अब जेसी-  
560786के), 23 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 4270792एल अब जेसी-  
560787एम), 16 अगस्त 2012/26 फरवरी 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 26 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार शम्भु कुमार सिंह (सं. 4270765एफ अब जेसी-560788पी),  
16 अगस्त 2012/01 मार्च 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2012 से दी जाती है)

हवलदार शोभ नाथ सिंह (सं. 4270768पी अब जेसी-560789एक्स),  
16 अगस्त 2012/01 अप्रैल 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)



कम्पनी हवलदार मेजर धर्मेन्द्र कुमार सिंह (सं. 4270777डब्ल्यू अब जेसी- 560790एम), 29 अगस्त 2012/01 मई 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2012 से दी जाती है)

हवलदार धीरेन्द्र कुमार (सं. 4270780डब्ल्यू अब जेसी-560791पी), 16 अगस्त 2012/16 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 16 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार प्रसाद (सं. 2594157एल अब जेसी-560792एक्स), 26 जुलाई 2012/01 मई 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2012 से दी जाती है)

हवलदार शिव शंकर यादव (सं. 2594209डब्ल्यू अब जेसी-560793ए), 27 अगस्त 2012/01 मई 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2012 से दी जाती है)

हवलदार कृष्णा प्रसाद साह (सं. 4270753एम अब जेसी-560794एच), 16 अगस्त 2012/01 जून 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2012 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर मदन प्रसाद सिंह (सं. 4271048ए अब जेसी-560795एल), 16 अगस्त 2012/01 जून 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 4271004एच अब जेसी-560796एन), 16 अगस्त 2012/01 जून 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2012 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर पंचु उर्खे (सं. 4271911एच अब जेसी-560797डब्ल्यू), 04 सितम्बर 2012/01 जुलाई 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार लाल देव उर्खे (सं. 4271997एम अब जेसी-560798वाई), 04 सितम्बर 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार ध्रुव नारायण ठाकुर (सं. 4268735एल अब जेसी-560799एफ), 25 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर विमल कुमार नायक (सं. 4268202एच अब जेसी-560800एल), 01 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार संगडे भरत सिंह हरि सिंह (सं. 4271492डब्ल्यू अब जेसी-560801एन), 01 सितम्बर 2012/01 अगस्त 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार सिकुर स्वायों (सं. 4271549ए अब जेसी-560802डब्ल्यू), 07 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक (एसडी) सुरेन्द्र सिंह (सं. 4270212के अब जेसी-560803वाई), 01 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

हवलदार चन्दर देव प्रसाद यादव (सं. 4269704एक्स अब जेसी-560804एफ), 15 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

#### गढ़वाल राइफलस

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार निरज पाल सिंह (सं. 4086391डब्ल्यू अब जेसी-531246एच), 27 अगस्त 2012/01 जुलाई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार केशवा नन्द (सं. 4072084एन अब जेसी-531247एल), 29 अगस्त 2012/01 जुलाई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार जय राम (सं. 4071003डब्ल्यू अब जेसी-531251एन), 01 अगस्त 2012

हवलदार निहाल सिंह (सं. 4071897एक्स अब जेसी-531252डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012

हवलदार जबर सिंह चौहान (सं. 4072171एफ अब जेसी-531253वाई), 06 सितम्बर 2012/01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 4072560एफ अब जेसी-531254एफ),  
23 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4073508एल अब जेसी-531255के),  
01 अगस्त 2012

हवलदार योगम्बर सिंह (सं. 4072592के अब जेसी-531256एम),  
23 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 4071919एल अब जेसी-531257पी),  
01 अगस्त 2012

हवलदार दिगपाल पुरी (सं. 4071933एक्स अब जेसी-531258एक्स),  
01 अगस्त 2012

हवलदार बासुदेव सिंह (सं. 4071980पी अब जेसी-531259ए),  
01 अगस्त 2012

हवलदार सुकार सिंह रावत (सं. 4072053एन अब जेसी-531260पी),  
16 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार मकान सिंह (सं. 4073820एन अब जेसी-531261एक्स),  
01 अगस्त 2012

हवलदार गोवर्धन लाल, सेना मेडल (सं. 4074019एम अब  
जेसी 531262ए), 01 अगस्त 2012

हवलदार टिकेन्द्र सिंह (सं. 4074096एफ अब जेसी-531263एच),  
01 अगस्त 2012

हवलदार धन सिंह (सं. 4074395ए अब जेसी-531264एल),  
01 अगस्त 2012

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 4071570वाई अब जेसी-531265एन),  
01 अगस्त 2012

हवलदार राकेश कुमार धसमाना (सं. 4071777वाई अब  
जेसी-531266डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012/17 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 17 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार राम रक्ष पाल सिंह (सं. 4070978एन अब  
जेसी-531268एफ), 01 सितम्बर 2012

हवलदार गजपाल सिंह (सं. 4070554पी अब जेसी-531269के),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार पिताम्बर सिंह (सं. 4071642एक्स अब जेसी-531270वाई),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 4072213एच अब जेसी-531271एफ),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार चन्द्र मोहन सिंह (सं. 4071671एम अब जेसी-531272के),  
01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार (लिपिक एसडी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक एसडी) शिव कुमार (सं. 8032822एच अब  
जेसी-531249डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012

हवलदार (लिपिक एसडी) संजय कुमार (सं. 4072477के अब  
जेसी-531250एल), 01 अगस्त 2012

हवलदार (लिपिक एसडी) हंस राज (सं. 4072868पी अब  
जेसी-531267वाई), 01 सितम्बर 2012

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 2684146ए अब जेसी-451407एम),  
30 नवम्बर 2011

हवलदार राम बली सिंह (सं. 2682787एन अब जेसी-451408पी),  
01 जुलाई 2012

हवलदार मिर्जा निहालुद्दीन बेग (सं. 2685311एम अब  
जेसी-451409एक्स), 01 जुलाई 2012

हवलदार नौशाद (सं. 2687123के अब जेसी-451410एम),  
01 जुलाई 2012

हवलदार अब्बास खान (सं. 2684562के अब जेसी-451411पी),  
06 जुलाई 2012

हवलदार दिग राम सिंह (सं. 2684987एच अब जेसी-451412एक्स),  
15 जुलाई 2012

हवलदार सोम दत्त (सं. 2683608पी अब जेसी-451413ए),  
22 जुलाई 2012

हवलदार वीर सिंह (सं. 2685457ए अब जेसी-451414एच),  
01 अगस्त 2012

हवलदार वीर सिंह डांगी (सं. 2683182वाई अब जेसी-451415एल),  
01 अगस्त 2012

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2682521एफ अब जेसी-451416एन),  
01 अगस्त 2012

हवलदार प्रदीप कुमार सिंह (सं. 2682567के अब  
जेसी-451417डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012

हवलदार उधमी राम गुर्जर (सं. 2683173एक्स अब  
जेसी-451418वाई), 01 अगस्त 2012

हवलदार नारायण सिंह (सं. 2684037एन अब जेसी-451419एफ),  
01 अगस्त 2012

हवलदार महाराज सिंह गुर्जर (सं. 2683825एल अब जेसी-451420डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2012

हवलदार बंशी लाल (सं. 2683699के अब जेसी-451421वाई),  
01 अगस्त 2012

हवलदार अलताफ हुसैन (सं. 2684058के अब जेसी-451422एफ),  
01 अगस्त 2012

हवलदार सुरेन्द्र पाल सिंह (सं. 2685347एल अब जेसी-451423के),  
01 अगस्त 2012

हवलदार राजेन्द्र सिंह लुनायच (सं. 2686039एक्स अब जेसी-451424एम), 01 अगस्त 2012

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 2686123एक्स अब जेसी-451425पी),  
01 अगस्त 2012

हवलदार प्रदीप सिंह (सं. 2685927ए अब जेसी-451426एक्स),  
01 अगस्त 2012

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 2682556पी अब जेसी-451427ए),  
17 अगस्त 2012

#### जम्मू और कश्मीर राईफल्स

#### नायब सूबेदार जीडी के रैंक में

हवलदार अनिल कुमार थापा (सं. 13756037ए अब जेसी-581525के),  
23 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार घनश्याम सिंह (सं. 13751588एफ अब जेसी-581526एम),  
01 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार राजिन्दर कुमार (सं. 13752196ए अब जेसी-581527पी),  
31 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जुलाई 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार वेद प्रकाश (सं. 13752805वाई अब जेसी-581528एक्स),  
01 अगस्त 2012 \*

हवलदार राकेश पटियाल (सं. 13752995डब्ल्यू अब जेसी-581529ए),  
01 अगस्त 2012

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13754179वाई अब जेसी-581530पी),  
23 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 13753373एफ अब जेसी-581531एक्स),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार शकिल अहमद (सं. 13752825एम अब जेसी-581532ए),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार देव राज (सं. 13753058एल अब जेसी-581533एच),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार तोता राम (सं. 13753107एच अब जेसी-581534एल),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार मोहन सिंह (सं. 13753108एल अब जेसी-581535एन),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार हकुमत राज (सं. 13753459ए अब जेसी-581536डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार देवी सिंह (सं. 13751695एच अब जेसी-581537वाई),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार जग्गा राम (सं. 13754036वाई अब जेसी-581538एफ),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार सलीम मोहम्मद (सं. 13754505डब्ल्यू अब जेसी-581539के),  
08 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार नागर माल (सं. 13753465एन अब जेसी-581540वाई),  
05 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 13756701पी अब जेसी-581541एफ),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 13756711वाई अब जेसी-581542के),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार वंशी लाल (सं. 13752092वाई अब जेसी-581509एम),  
11 अप्रैल 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार मलकीत सिंह (सं. 1376068एन अब जेसी-581510एफ),  
10 अप्रैल 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार दर्शन चंद (सं. 4071527एक्स अब जेसी-581511के),  
06 अप्रैल 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार तरलोक चंद (सं. 4071842एन अब जेसी-581512एम),  
10 अप्रैल 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 13752607एन अब जेसी-581513पी),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार विजय कुमार (सं. 13752673डब्ल्यू अब  
जेसी-581514एक्स), 01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चंद (सं. 13753231के अब जेसी-581515ए),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार सुभास चन्द्र (सं. 13753148एम अब जेसी-581516एच),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार सलिनंदर सिंह (सं. 13754599वाई अब जेसी-581517एल),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 13754618वाई अब जेसी-581518एन),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार यस पाल सिंह (सं. 13754662एच अब जेसी-581519डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार विजय कुमार (सं. 13753472के अब जेसी-581520एल),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 13753686ए अब जेसी-581523एन),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार करम सिंह डोगरा (सं. 13753690एच अब  
जेसी-581522डब्ल्यू), 01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार तरसेम लाल (सं. 13753965एल अब जेसी-581523वाई),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार देश राज शर्मा (सं. 13754181डब्ल्यू अब जेसी-581524एफ),  
01 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लिपिक एसडी के रैंक में

हवलदार लिपिक (एसडी) विजया शंकर सिंह यादवा (सं. 3989660एच  
अब जेसी-581484एल), 03 मई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक (एसडी) जौन के वी (सं. 13753931एक्स अब  
जेसी-581485एन), 05 जुलाई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक (एसडी) टी वी मधु (सं. 13753934एल अब  
जेसी-581486डब्ल्यू), 07 जुलाई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक (एसडी) जय राम राठी (सं. 13752965वाई अब  
जेसी-581508के), 01 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी डी के रैंक में

हवलदार खेम बहादुर थापा (सं. 13752866डब्ल्यू अब  
जेसी-581543एम), 01 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13752759पी अब जेसी-581544पी),  
08 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 05 अगस्त 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार महिपाल गुलेरीया (सं. 13754134वाई अब  
जेसी-581545एक्स), 10 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी से दी जायेगी)

हवलदार यश पॉल (सं. 13752876ए अब जेसी-581546ए),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार पवन कुमार शर्मा (सं. 13752987एक्स अब  
जेसी-581547एच), 01 सितम्बर 2012

हवलदार रछपाल दास (सं. 13753470वाई अब जेसी-581548एल),  
05 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी से दी जायेगी)

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगत सिंह बोहरा (सं. 13618042एम अब  
जेसी-413640डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2012

हवलदार धरम सिंह (सं. 13618054एफ अब जेसी-413641वाई),  
01 अप्रैल 2012

हवलदार प्रेम पाल गोसाई (सं. 13618105के अब जेसी-413642एफ),  
01 अप्रैल 2012

हवलदार संजय छेत्री (सं. 13620105एच अब जेसी-413643के),  
10 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2012)

हवलदार रमेश चन्द (सं. 13620680के अब जेसी-413644एम),  
07 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2012)

हवलदार नीलाजगी श्री शैल पारपा (सं. 2789602वाई अब  
जेसी-413645पी), 01 मार्च 2012

हवलदार प्रकाश चन्द्रा (सं. 4185012एक्स अब जेसी-413646एक्स),  
01 मार्च 2012

हवलदार विनोद कुमार (सं. 13619353एम अब जेसी-413647ए),  
01 अप्रैल 2012

हवलदार रमेश सिंह (सं. 13620701पी अब जेसी-413648एच),  
07 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2012)

हवलदार बनवारी लाल मीना (सं. 2685051एम अब  
जेसी-413649एल), 19 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2012)

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 3395713पी अब जेसी-413650ए),  
03 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2012)

हवलदार धन बहादुर कामु मगर (सं. 5453536ए अब  
जेसी-413651एच), 03 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2012)

हवलदार गोपाल सिंह नेगी (सं. 13618165वाई अब जेसी-413652एल),  
01 मई 2012

हवलदार जगतार सिंह (सं. 13618013एक्स अब जेसी-413653ए),  
24 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
02 अप्रैल 2012)

हवलदार रजिन्दर सिंह (सं. 13619437ए अब जेसी-413654डब्ल्यू),  
01 मई 2012

हवलदार राज कुमार प्रसाद (सं. 13619784वाई अब  
जेसी-413655वाई), 23 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
12 फरवरी 2012)

हवलदार काम्बले नारायण चन्दर (सं. 13620848एल अब  
जेसी-413656एफ), 04 अप्रैल 2012

हवलदार माने बजरंग भीम राव (सं. 13620971के अब  
जेसी-413657के), 15 अप्रैल 2012

हवलदार कुन्दन सिंह रावत (सं. 13618191ए अब जेसी-413658एम),  
01 जून 2012

हवलदार कृष्णा चन्द्रा (सं. 13618878के अब जेसी-413659पी),  
06 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
28 अप्रैल 2012)

हवलदार सुभासीस देवनाथ (सं. 13619667एन अब  
जेसी-413660के), 09 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2012)

हवलदार सोशील कुमार (सं. 13619694एक्स अब  
जेसी-413661एम), 09 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2012)

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 13618727एल अब जेसी-413663एक्स),

18 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अप्रैल 2012)

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 13619021एच अब जेसी-413664ए),

01 जून 2012

हवलदार पवन कुमार (सं. 13619817वाई अब जेसी-413665एच),

18 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012)

हवलदार भुपेन्द्रा सिंह (सं. 13620910एम अब जेसी-413666एल),

07 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2012)

हवलदार भगत सिंह (सं. 13621021एफ अब जेसी-413667एन),

01 जून 2012

हवलदार नरेंद्र सिंह (सं. 13759928एन अब जेसी-413669वाई),

03 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012)

हवलदार मान सिंह (सं. 13619040एल अब जेसी-413670एन),

01 जुलाई 2012

हवलदार शैलेन्द्रा कुमार पाधी (सं. 13619831एल अब जेसी-413671डब्ल्यू), 02 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012)

हवलदार प्यार चन्द (सं. 13621069पी अब जेसी-413674के),

01 अगस्त 2012

हवलदार लाल बहादुर तमंग, शौर्य चक्र (सं. 9422500वाई अब जेसी-413675एम), 01 अगस्त 2012

हवलदार बुय सिंह (सं. 2487264पी अब जेसी-413676ए), 01 अगस्त 2012

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) सुधीर जे (सं. 13618176एल अब जेसी-413662पी), 01 जुलाई 2012

हवलदार (लिपिक) अजय सिंह (सं. 13619802डब्ल्यू अब जेसी-413672वाई), 01 अगस्त 2012

हवलदार (लिपिक) अवतार सिंह (सं. 13620295ए अब जेसी-413673एफ), 01 अगस्त 2012

कुमाँऊ रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार फतेह सिंह (सं. 4184451डब्ल्यू अब जेसी-541115एल),  
23 अगस्त 2012/27 जून 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 27 जून 2012 से दी गई है)

हवलदार दया किशन (सं. 4182418ए अब जेसी-541116एन),  
01 अगस्त 2012

हवलदार कविन्द्र सिंह (सं. 4182462के अब जेसी-541117एन),  
01 अगस्त 2012

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 4183526डब्ल्यू अब जेसी-541118वाई),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4181027एच अब जेसी-541119एफ),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार राजेन्द्र सिंह हॉलारिया (सं. 4181028एल अब जेसी-541120डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2012

हवलदार नरेन्द्र सिंह रावत (सं. 4183055एन अब जेसी-541121वाई),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार सुरेश चन्द्रा जोशी (सं. 4183220एन अब जेसी-541122एफ),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार हरेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 4183318एफ अब जेसी-541123के),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार जीवन चन्द्रा भट्ट (सं. 4182788ए अब जेसी-541124एम),  
01 सितम्बर 2012

नागा रेजिमेंट

हवलदार एस आर थंगम अनल (सं. 14702916डब्ल्यू अब जेसी-590324एम), 21 अगस्त 2012/29 जून 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 जून 2012 से दी गई है)

हवलदार लंघू बुंगवार अनल (सं. 14702888पी अब जेसी-590325पी), 18 अगस्त 2012/29 जून 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 जून 2012 से दी गई है)

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 4184243एफ अब जेसी-541125पी), 10 सितम्बर 2012/19 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 19 अगस्त 2012 से दी गई है)

हवलदार भगवत सिंह पटवाल (सं. 4185060एक्स अब जेसी-541126एक्स), 11 सितम्बर 2012/01 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 सितम्बर 2012 से दी गई है)

हवलदार उमेश सिंह अधिकारी (सं. 4182996पी अब जेसी-541127ए), 01 सितम्बर 2012

हवलदार इन्द्रा सिंह (सं. 4183020एक्स अब जेसी-541128एच), 01 सितम्बर 2012

हवलदार चन्द्र शेखर (सं. 4183070एच अब जेसी-541129एल), 01 सितम्बर 2012

हवलदार बालम सिंह (सं. 4183402एफ अब जेसी-541130ए), 01 सितम्बर 2012

हवलदार गिरीश चन्द्रा जोशी (सं. 4183753डब्ल्यू अब जेसी-541131एच), 01 सितम्बर 2012

हवलदार चन्द शेखर (सं. 4182526के अब जेसी-541132एल), 01 सितम्बर 2012

#### डोगरा रेजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार साकिन्दर पाल (सं. 3990882के अब जेसी-521559एन), 21 जून 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से)

हवलदार हर्दीप सिंह (सं. 3990935एक्स अब जेसी-521560एच), 18 जून 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3990936ए अब जेसी-521561एल), 21 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से)

हवलदार गारू राम (सं. 3394422एच अब जेसी-521562एन), 30 जून 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2012 से)

हवलदार किशोर कुमार (सं. 3991270वाई अब जेसी-521563डब्ल्यू), 11 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जून 2012 से)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3394425डब्ल्यू अब जेसी-521564वाई), 06 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

हवलदार हरविन्दर सिंह राणा (सं. 3990087के अब जेसी-521565एफ), 09 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3990002एच अब जेसी-521566के), 27 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

##### नायब सूबेदार संगीतकार के रैंक में

हवलदार/संगीतकार जय राम शर्मा (सं. 3991479के अब जेसी-521567एम), 14 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से)

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार केवल सिंह (सं. 3989926के अब जेसी-521568पी), 25 जून 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से)

हवलदार सत पाल (सं. 3989981ए अब जेसी-521569एक्स), 02 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 3989633वाई अब जेसी-521570एम), 31 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से)

हवलदार महाबीर (सं. 3990099वाई अब जेसी-521571पी), 27 जुलाई 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जुलाई 2012 से)

हवलदार मोहिन्द्र सिंह (सं. 3990091एम अब जेसी-521572एक्स), 08 अगस्त 2012+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2012 से)

नियमित सेना इन्फैन्ट्री जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

##### नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार (लिपिक) पूरन प्रकाश (सं. 9096081एन अब जेसी-594114के), 01 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार स्वर्न लाल (सं. 9089586एफ अब जेसी-594115एम),  
16 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद खालिक (सं. 9096160एच अब जेसी-594116पी), 29 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 9089407डब्ल्यू अब जेसी-594117एक्स),  
29 जून 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जून 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुरिंदर सिंह मनहास (सं. 9089321एक्स अब जेसी-594118ए), 16 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 25 जून 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शल्लो राम (सं. 9094996एफ अब जेसी-594119एच),  
25 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 28 जून 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार किरपाल सिंह चिव (सं. 9089401पी अब जेसी-594120एक्स), 16 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 9089422एल अब जेसी-594121ए),  
16 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहिंदर सिंह (सं. 9089619एफ अब जेसी-594122एच),  
01 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार करन सिंह (सं. 9095398डब्ल्यू अब जेसी-594123एल),  
25 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 9096437डब्ल्यू अब जेसी-594124एन), 16 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शाम सिंह राजा (सं. 9089028ए अब जेसी-594125डब्ल्यू),  
23 जुलाई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 14 जुलाई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद इशाक (सं. 9094496एफ अब जेसी-594126वाई),  
01 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अगस्त 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) रोहिताश्व कुमार (सं. 9095843के अब जेसी-594038एच), 01 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जनवरी 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) ओम प्रकाश (सं. 9095937एफ अब जेसी-594039एल), 02 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जनवरी 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) अशोक कुमार (सं. 9095949डब्ल्यू अब जेसी-594040ए), 02 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जनवरी 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रमेश लाल सलगोत्रा (सं. 9089406एन अब जेसी-594041एच), 23 नवम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 9094259ए अब जेसी-594042एल),  
04 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार केवल सिंह चौधरी (सं. 9088656एच अब जेसी-594043एन), 13 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 दिसम्बर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रोमेश लाल (सं. 9088020एच अब जेसी-594044डब्ल्यू),  
20 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 दिसम्बर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) रविंदर कुमार (सं. 9095942एम अब जेसी-594045वाई), 02 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 20 नवम्बर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद अरशद (सं. 9094529के अब जेसी-594046एफ), 27 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में 14 दिसम्बर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 9088977ए अब जेसी-594047के),  
30 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 दिसम्बर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार विक्रम जीत सिंह भदवाल (सं. 9089815एफ अब जेसी-594048एम), 02 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जनवरी 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार इकबाल (सं. 9089670एफ अब जेसी-594049पी),  
02 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 18 दिसम्बर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) रनवीर सिंह शिखावत (सं. 9095827एम अब जेसी-594050के), 18 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जनवरी 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 9089428ए अब जेसी-594051एम),  
02 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 दिसम्बर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)



हवलदार जगदीश राज (सं. 9089050एल अब जेसी-594052पी),  
04 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 दिसम्बर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) रचपाल सिंह (सं. 9095916एल अब जेसी-594021पी), 01 अक्टूबर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अक्टूबर 2011 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रविंदर कुमार (सं. 9089070वाई अब जेसी-594087एल),  
24 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 अप्रैल 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राम पाल दबगोतरा (सं. 9088353एन अब जेसी-594088एन), 29 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 18 अप्रैल 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुरजीत कुमार (सं. 9088408एम अब जेसी-594089डब्ल्यू),  
29 अप्रैल 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 26 अप्रैल 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार करतार सिंह (सं. 9088502डब्ल्यू अब जेसी-594090एल),  
01 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सीता राम (सं. 9089817एम अब जेसी-594091एन),  
02 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद शिराज (सं. 9089942डब्ल्यू अब जेसी-594092डब्ल्यू), 02 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार परशोत्तम सिंह (सं. 9094325एक्स अब जेसी-594093वाई),  
02 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मुश्ताक हुसैन (सं. 9089668के अब जेसी-594094एफ),  
01 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार इश्फोक अहमद (सं. 9089669एम अब जेसी-594095के),  
02 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार क्रिशन लाल (सं. 9094666एच अब जेसी-594096एम),  
01 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार ओमकार सिंह (सं. 9094371एम अब जेसी-594097पी),  
01 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गुलाम रसूल (सं. 9095641एच अब जेसी-594098एक्स),  
01 मई 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 मई 2012 से वरिष्ठता दी जाती है)

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अरुन कुमार (- अब जेसी-471076एक्स), 01 सितम्बर  
2012/07 मई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विजय कुमार (- अब जेसी-471077ए), 01 सितम्बर  
2012/07 मई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जयदीप (- अब जेसी-471078एच), 01 सितम्बर  
2012/07 मई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार नत्थू सिंह (सं. 2889830डब्ल्यू अब जेसी-471079एल),  
26 अप्रैल 2012/21 दिसम्बर 2011 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार अजीत कुमार (सं. 2887218एन अब जेसी-471080ए),  
09 जुलाई 2012/10 मई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2887369एम अब जेसी-471081एच),  
05 अगस्त 2012/01 जून 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार जय राम सिंह खाखल (सं. 2886356एच अब जेसी-471082एल), 11 जुलाई 2012/01 जून 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार लीला राम (सं. 2887578के अब जेसी-471083एन),  
09 जुलाई 2012/01 जून 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक हनुमान प्रसाद (सं. 2885849एक्स अब जेसी-471084डब्ल्यू), 23 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक श्योपाल सिंह (सं. 2887799डब्ल्यू अब जेसी-471085वाई), 04 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक अशोक कुमार (सं. 2887877एच अब जेसी-471086एफ), 05 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक महिपाल सिंह (सं. 2888268एल अब जेसी-471087के), 04 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सायर सिंह (सं. 2885997एच अब जेसी-471088एम), 20 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार शिवाजी सिंह (सं. 2888634के अब जेसी-471089पी), 02 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक मलकियत सिंह (सं. 2888307वाई अब जेसी-471090के), 01 अगस्त 2012

हवलदार लिपिक अजय शर्मा (सं. 2888369वाई अब जेसी-471091एम), 01 अगस्त 2012

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2886203वाई अब जेसी-471092पी), 11 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार अम्रित पाल (सं. 2889631एच अब जेसी-471093एक्स), 01 अगस्त 2012

हवलदार परसा राम सारान (सं. 2886933के अब जेसी-471094ए), 01 अगस्त 2012

हवलदार प्रवल प्रताप सिंह (सं. 2886490एन अब जेसी-471095एच), 14 अगस्त 2012/01 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

8 जी आर

नायब सूबेदार (जीडी/लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अनिल कुमार प्रजापति (सं. 6389823डब्ल्यू अब जेसी-623994डब्ल्यू), 16 मई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सोनम त्शोरिंग भुटिया (सं. 5755980एन अब जेसी-623995वाई), 08 मई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2012 से दी जायेगी)

हवलदार धन बहादुर राना मगर (सं. 5751848डब्ल्यू अब जेसी-623996एफ), 01 मई 2012

हवलदार बिशु कुमार पुन (सं. 5752419एफ अब जेसी-623997के), 01 मई 2012

हवलदार सिब बहादुर थापा (सं. 5752485के अब जेसी-623998एम), 01 जुलाई 2012

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जय किशन (सं. 3184264एफ अब जेसी-490854एम), 20 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार हरबिलास सिंह (सं. 3184266एम अब जेसी-490855पी), 14 जुलाई 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जून 2012 से दी जायेगी)

हवलदार राम कुमार (सं. 3180876एफ अब जेसी-490856एक्स), 31 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 3184601एल अब जेसी-490857ए), 17 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार गोकुल राम (सं. 3184975एफ अब जेसी-490858एच), 08 अगस्त 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अगस्त 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सुखेन्द्र कुमार (सं. 3184632एल अब जेसी-490859एल), 01 सितम्बर 2012

हवलदार जयवीर सिंह (सं. 3185044के अब जेसी-490860ए),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार मदन सिंह कुलहरि (सं. 3181765डब्ल्यू अब  
जेसी-490861एच), 01 सितम्बर 2012

हवलदार बाला राम डूकिया, (सं. 3181891एच अब  
जेसी-490862एल), 01 सितम्बर 2012

हवलदार नब्राब सिंह (सं. 3185265डब्ल्यू अब जेसी-490863एन),  
04 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)

हवलदार प्रदीप (सं. 3185061के अब जेसी-490864डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार दया किशन (सं. 3192391एल अब जेसी-490865वाई),  
01 सितम्बर 2012

हवलदार जय जय वैशणोजीत (सं. 3184553डब्ल्यू अब  
जेसी-490866एफ), 01 सितम्बर 2012

हवलदार लिपिक सुनील कुमार सिंह (सं. 3183804एच अब  
जेसी-490867के), 01 अगस्त 2012

हवलदार लिपिक दया राम (सं. 3183915ए अब जेसी-490868एम),  
01 अगस्त 2012

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार उतेकर राजेश दिनकर (सं. 2788664एम अब  
जेसी-460567एन), 11 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 मई 2012 से दी जाती है)

हवलदार गावडे रामचंद्र दत्ताराम (सं. 2791704एन अब  
जेसी-460568डब्ल्यू), 12 जुलाई 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार पाटले रिशिपाल चुनिलाल (सं. 2788270एन अब  
जेसी-460569वाई), 20 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार पाटील शिवाजी जनारदन (सं. 2790425डब्ल्यू अब  
जेसी-460570एन), 27 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार राजा मित्रा (सं. 2789595एन अब जेसी-460571डब्ल्यू),  
18 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जाती है)

हवलदार मोरे क्रिष्णा साहेबराव (सं. 2789351ए अब  
जेसी-460574के), 01 सितम्बर 2012

हवलदार काले प्रविन प्रभाकर (सं. 2789271एच अब  
जेसी-460575एम), 01 सितम्बर 2012

हवलदार पाटील राजेशकुमार विनायक (सं. 2790178एन अब  
जेसी-460576पी), 07 सितम्बर 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक (एसडी) के रैंक में

हवलदार लिपिक (एसडी) उमेश कुमार सिंह (सं. 27868474के अब  
जेसी-460572वाई), 01 सितम्बर 2012

हवलदार लिपिक (एसडी) विजय कुमार कुरूप के (सं. 2786849पी  
अब जेसी-460573एफ), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कोवाडकर गनपति गुंडु (सं. 2788233ए अब जेसी-  
460577एक्स), 05 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार एम शरभुधीन (सं. 2788542एच अब जेसी-460578ए),  
05 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार पाटील विनोद दयाराम (सं. 2789981ए अब जेसी-  
460579एच), 05 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 फरवरी 2012 से दी जाती है)

हवलदार यल्लापा सिंदोलकर (सं. 2788234एच अब जेसी-  
460580एक्स), 05 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 24 मार्च 2012 से दी जाती है)

हवलदार करंजेकर दिलिप भय्यालाल (सं. 2791608आई अब  
जेसी-460581ए), 05 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 24 मार्च 2012 से दी जाती है)

हवलदार लक्ष्मन पाटील (सं. 2791655डब्ल्यू अब जेसी-  
460582एच), 05 अगस्त 2012 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)

हवलदार दुडाल पोपट प्रल्हाद (सं. 2789185एक्स अब जेसी-460583एल), 17 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जाती है)

हवलदार चव्हाण सुरेश कारभारी (सं. 3187817एक्स अब जेसी-460584एन), 17 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश पाटील (सं. 2784916डब्ल्यू अब जेसी-460585डब्ल्यू), 17 सितम्बर 2012\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2012 से दी जाती है)

#### सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजा सिंह (सं. 3391691के अब जेसी-500496एच), 29 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2012)

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 3391628पी अब जेसी-500497एल), 01 सितम्बर 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3392384वाई अब जेसी-500498एन), 13 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3392649एक्स अब जेसी-500499डब्ल्यू), 29 अगस्त 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अगस्त 2012)

हवलदार जनक सिंह (सं. 3392369के अब जेसी-500500ए), 01 सितम्बर 2012

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

लांस नायक देवेन्द्र सिंह (सं. 13764590एक्स अब जेसी-500495ए), 30 जून 2012

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

रिक्लुट (आरटी) कृष्णा मुरारी त्रिपाठी (सं. 581001पी अब जेसी-581401पी), 16 जून 2012

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

रिक्लुट (धर्म शिक्षक) सनत कुमार मिश्रा (सं. 490727एक्स अब जेसी-490727एक्स), 19 नवम्बर 2011

एस करमाकर  
अवर सचिव

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 59, दिनांक 21 जनवरी 2013--सक्षम प्राधिकारी स से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों (समूह 'ख' अराजपत्रित) को वेतन बैंड-2 में 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान में उनके नाम के सामने लिखी गई तारीख से दी गई अवधि तक अथवा सेवानिवृत्ति अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

एस नागराजन, 15 मई 1954, 04 सितम्बर 2012 से 17 मई 2013 तक

बी एस नेगी, 01 जून 1957, 03 अक्टूबर 2012 से 17 मई 2013 तक

2. तदर्थ आधार पर प्रदान की गई नियुक्ति इन्हें नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकारी नहीं देगी।

3. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा इस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता एवं अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी स से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों (समूह 'ख' अराजपत्रित) को एल डी सी ई परीक्षा के आधार पर उनके नाम के सामने लिखी तारीख से वेतन बैंड-2 में 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

शिवकुमार, 23 फरवरी 1971, 2008, 22 सितम्बर 2008

आशीष रे, 07 जुलाई 1969, 2008, 24 अक्टूबर 2007

अभय सिंह  
उप मुप्रअ (प्रशा)

थलसेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 60, दिनांक 22 जनवरी 2013--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नायब सूबेदार से सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सुरजीत सिंह (जेसी-763618ए), 01 अक्टूबर 2012

राजेश कुमार राय (जेसी-763606एल), 01 अक्टूबर 2012  
 सुरेश कुमार (जेसी-763619एच), 01 अक्टूबर 2012  
 मोहम्मद अब्दुल सलाम (जेसी-764261एफ), 01 अक्टूबर 2012  
 उन्निक्रिष्णन वी एन (जेसी-763291एम), 01 अक्टूबर 2012  
 कौशिक कुमार (जेसी-763265एल), 01 अक्टूबर 2012  
 जगमल सिंह (जेसी-763603एक्स), 01 अक्टूबर 2012  
 मोहम्मद नसीब अली (जेसी-763614के), 01 अक्टूबर 2012  
 चन्द्रभान (जेसी-763351डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012  
 त्रिभोवन नानजी परमर (जेसी-763610एन), 01 अक्टूबर 2012  
 प्रदीप कुमार झा (जेसी-763611डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012  
 लाला राम (जेसी-763165ए), 01 अक्टूबर 2012  
 मानिक लाल नाथ (जेसी-763746एक्स), 01 नवम्बर 2012  
 नायब सूबेदार से सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी)  
 के रैंक में  
 हरिहर सिंह (जेसी-765243एल), 18 अगस्त 2012/01 अप्रैल 2012\*  
 बादन सिंह (जेसी-765869एच), 01 अक्टूबर 2012/01 अप्रैल 2012\*  
 राम बाबू सिंह (जेसी-765883पी), 22 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 सौदान सिंह (जेसी-765720एफ), 13 अक्टूबर 2012/01 अप्रैल 2012\*  
 महावीर सिंह (जेसी-766284एफ), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 भिकारी महतो (जेसी-766200एच), 14 जुलाई 2012/01 जुलाई 2012\*  
 रामेश्वर दयाल (जेसी-766113पी), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 बिपिन कुमार पाण्डेय (जेसी-766282डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 सुनित सिंह (जेसी-765633एन), 04 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 राज कुमार (जेसी-765895के), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 खोट कुण्डलिक धोनदिबा (जेसी-765232वाई), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 सुशील सिंहा (जेसी-765893वाई), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*

राम कुमार यादव (जेसी-765636एफ), 18 अक्टूबर 2012/01 अप्रैल 2012\*  
 सुरेश चन्द्र (जेसी-766192पी), 20 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 अनिल कुमार केशरी (जेसी-766191एच), 06 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 पलानियसन एस (जेसी-765882एम), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 भगत सिंह (जेसी-766589एफ), 01 नवम्बर 2012  
 इशाकली खान (जेसी-766105डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 योगेन्द्र नाथ (जेसी-766203डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 नायब सूबेदार से सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में  
 प्रताप चन्द्र मोहन्ती (जेसी-765163एन), 12 अक्टूबर 2012/01 अगस्त 2012\*  
 रंजीत सिंह (जेसी-764550डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 शिव चन्द्र राय (जेसी-764544एच), 05 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 राजबीर सिंह (जेसी-764553के), 01 अक्टूबर 2012/01 जुलाई 2012\*  
 नायब सूबेदार से सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में  
 प्रेम चन्द मीना (जेसी-764396एच), 11 अक्टूबर 2012/01 अक्टूबर 2012\*  
 सुजित कुमार सिंह (जेसी-764395ए), 01 अक्टूबर 2012  
 सुरेश चन्द्र प्रधान (जेसी-764399डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012  
 दिनेश गोस्वामी (जेसी-764337डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2012  
 नायब सूबेदार से सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में  
 बेलोशी भरत बाबू राव (जेसी-764591ए), 08 सितम्बर 2012/13 दिसम्बर 2011\*  
 पुजारी दीपक शामराव (जेसी-764876एम), 25 सितम्बर 2012/01 दिसम्बर 2011\*  
 \*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एस के तनवर  
 अवर सचिव

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 61, दिनांक 22 जनवरी 2013--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत करते हैं :--

दौलत सिंह जैरवार को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 24 अगस्त 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रुपए 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रुपए 4,600/-पर

मुकेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 12 जून 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड रुपए 9,300--34,800/- (पीबी-2) एवं ग्रेड पे रुपए 4,600/-पर

राजीव रंजन खाँ  
उपनिदेशक (कार्मिक-एए2)

## सेना सचिव शाखा

सं. 62, दिनांक 23 जनवरी 2013--राष्ट्रपति सहर्ष, आई सी 31712 मेजर जनरल पी एस रबीन्द्रनाथ, एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 दिसम्बर 2012 (अपराह्न) से "1 गोरखा राईफल" के कर्नल ऑफ द रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करती हैं

पी के पटनायक  
निदेशक/एम एस एक्स

## वित्त प्रभाग

सं. 63, दिनांक 23 जनवरी 2013--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अनुभाग अधिकारी, श्री लोकेन्द्र नाथ की अधिवर्षिता की आयु होने पर उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं

रवि कत्याल  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

## सेना शाखा

## मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 64, दिनांक 24 जनवरी 2013--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करके पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किया जाता है :--

बी डी प्रसाद, 06 दिसम्बर 1951, 31 दिसम्बर 2011, 31 जनवरी 2012

आर के तलवार, 25 दिसम्बर 1951, 31 दिसम्बर 2011, 31 जनवरी 2012

अभय सिंह  
उप मुप्रअ (प्रशा)

## MINISTRY OF DEFENCE

## (FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 16th February 2013

No. 52, dated 16th January 2013—The President is pleased to appoint Smt Shobhana Joshi, IDAS (1979) as Financial Advisor (Acquisition) & Member (Defence Procurement Board) and Additional Secretary in the Ministry of Defence (Finance) with effect from forenoon of 26.12.2012

RAVI KATYAL  
Asstt Financial Adviser (Estt)

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 53, dated 16th January 2013—The President is pleased to appoint (IC-34775) Maj Gen Ravi Thodge, AVSM, SM, VSM as Colonel of the Regiment of I Gorkha Rifles with effect from 01 Jan 2013 (F/N)

P K PATTNAYAK  
Dir/MS (X)

## ARMY BRANCH

## MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 54, dated 17th January 2013—The Competent Authority has extended the appointment of the following Section Officers with effect from and upto the dates mentioned against their names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier:—

IC Sharma, 14 Jun 1955, 01 April 2011/31 Dec 2012

L Vaidyanathan, 08 Jul 1953, 01 April 2011/31 Dec 2012

SC Garg, 03 Jul 1955, 01 April 2011/31 Dec 2012

Sukhbir Singh, 19 Aug 1954, 11 Jul 2012/02 Nov 2012

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The ad hoc appointment will not bestow on these officers a claim for appointment to the above post on regular basis. The service rendered on ad hoc basis in the grade of Section Officer would not count for seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next grade.

ABHAY SINGH  
Dy CAO (A)

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 55, dated 17th January 2013—The President is pleased to make the following promotion:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## To be Subs Brig

(IC-39258) A/Brig KS Sheoran, Kumaon, 17 Jun 2011, 17 Jun 2011 with seniority from 01 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39067) A/Brig SK Ahuja, Punjab, 03 Oct 2009, 03 Oct 2009 with seniority from 01 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39444) A/Brig Chander Kant Sood, EME, 01 Oct 2009, 01 Oct 2009 with seniority from 01 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39454) A/Brig SK Thapa, SM, Para, 14 Nov 2009, 14 Nov 2009 with seniority from 01 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39484) A/Brig Harcharan Singh, VSM, Madras, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 02 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39582) A/Brig MS Bisht, AOC, 11 Nov 2010, 11 Nov 2010 with seniority from 02 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39600) A/Brig SCW Ghatpande, 9 GR, 14 Nov 2009, 14 Nov 2009 with seniority from 02 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39655) A/Brig H Joneja, 8 GR, 14 Nov 2009, 14 Nov 2009 with seniority from 02 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39922) A/Brig P Saxena, Assam, 14 Nov 2009, 14 Nov 2009 with seniority from 03 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-39940) A/Brig Jagatbir Singh, Armd, 01 Jan 2010, 01 Jan 2010 with seniority from 03 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40005) A/Brig JK Bansal, Sigs, 01 Aug 2009, 20 Sep 2009 with seniority from 03 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40202) A/Brig SK Singh, Raj Rif, 01 Dec 2009, 01 Dec 2009 with seniority from 04 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37865) A/Brig S Suresh Kumar, Madras, 01 Dec 2009, 01 Dec 2009 with seniority from 04 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37819) A/Brig S Pandey, AOC, 11 Nov 2010, 11 Nov 2010 with seniority from 04 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40200) A/Brig Rajeev Sharma, Arty, 05 Oct 2009, 05 Oct 2009 with seniority from 04 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37869) A/Brig PK Ganjoo, ASC, 01 Jul 2008, 01 Oct 2009 with seniority from 05 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37882) A/Brig Dalip Singh, AOC, 11 Nov 2010, 11 Nov 2010 with seniority from 05 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37886) A/Brig Avtar Singh, Sigs, 01 Aug 2009, 01 Oct 2009 with seniority from 05 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37892) A/Brig Ashwini Kumar, VSM, AVN, 01 Aug 2010, 01 Oct 2010 with seniority from 06 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37922) A/Brig JS Arora, Arty (GC), 11 Dec 2009 with seniority from 06 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40290) A/Brig B Bakshi, VSM, Engrs, 01 Mar 2009, 09 Oct 2009 with seniority from 06 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40291) A/Brig A Uppal, Arty (GC), 11 Dec 2009, 11 Dec 2009 with seniority from 06 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40293) A/Brig AS Kler, Armd, 01 Jan 2010, 01 Jan 2010 with seniority from 07 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40295) A/Brig AK Sapra, Engrs, 01 Apr, 2009, 30 Oct 2009 with seniority from 07 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40299) A/Brig Sanjay Verma, EME, 14 Aug 2009, 30 Oct 2009 with seniority from 07 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40302) A/Brig RP Singh, Mech Inf, 01 Jun 2010, 01 Jun 2010 with seniority from 07 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40303) A/Brig MPS Mendonca, Arty, 11 Dec 2009, 11 Dec 2009 with seniority from 08 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40306) A/Brig Sunil Gupta, EME, 21 Aug 2009, 01 Nov 2009 with seniority from 08 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40314) A/Brig CP Mohanty, Rajput, 05 Dec 2009, 05 Dec 2009 with seniority from 08 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40324) A/Brig RK Singh, YSM, Para, 05 Dec 2009, 05 Dec 2009 with seniority from 08 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40326) A/Brig Anil Pandey, Punjab, 05 Dec 2009, 05 Dec 2009 with seniority from 09 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40328) A/Brig N Kumar, Guards, 05 Dec 2009, 05 Dec 2009 with seniority from 09 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40330) A/Brig SM Singh, Jak Rif, 05 Dec 2009, 05 Dec 2009 with seniority from 09 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40331) A/Brig SC Sharan, Arty (GC), 10 Jan 2010, 10 Jan 2010 with seniority from 09 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40340) A/Brig PP Davis, AAD, 01 Dec 2009, 01 Dec 2009 with seniority from 10 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40346) A/Brig C Bharti, SC, Engrs, 01 Jun 2009, 01 Dec 2009 with seniority from 10 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40353) A/Brig Paramjit Singh, SM, Para, 05 Dec 2009, 05 Dec 2009 with seniority from 10 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40359) A/Brig AK Goyal, Punjab, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 10 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40360) A/Brig AB Mistry, VSM, Maratha LI, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 11 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40362) A/Brig OP Singh, 1 GR, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 11 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40363) A/Brig NJ George, Garh, Rif, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 11 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40364) A/Brig Gajendra Prasad, VSM, Dogra, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 11 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40366) A/Brig Anand Singh, SM, Sikh LI, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 12 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40373) A/Brig Kawaljit Singh, AAD, 01 Dec 2009, 15 Dec 2009 with seniority from 12 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40374) A/Brig KA Mahabir, Kumaon, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 12 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40378) A/Brig BV Rao, Engrs, 01 Jun 2009, 18 Dec 2009 with seniority from 12 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40380) A/Brig KJS Gill, Guards, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 13 Jan 2009 without effect on pay and pension



(IC-40382) A/Brig Arvind Dutta, Dogra, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 13 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40385) A/Brig KBK Keshab, Sikh, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 13 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40393) A/Brig JK Sharma, Mech Inf, 01 Jun 2010, 01 Jun 2010 with seniority from 13 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40395) A/Brig N Balan, Mahar, 08 Jan 2010, 08 Jan 2010 with seniority from 14 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40399) A/Brig Dinesh Sharma, VSM, Int, 01 Feb 2009, 01 Jan 2010 with seniority from 14 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40405) A/Brig SPS Aulakh, AAD, 01 Jan 2010, 03 Jan 2010 with seniority from 14 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40408) A/Brig C Mani, Sigs, 01 Aug 2009, 01 Jan 2010 with seniority from 14 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40411) A/Brig M Sree Kumar, Sigs, 14 Aug 2009, 01 Jan 2010 with seniority from 15 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40412) A/Brig Subodh Kumar, AAD, 01 Aug 2010, 01 Aug 2010 with seniority from 15 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40421) A/Brig SK Bhanot, Rajput, 08 Jan 2010, 10 Jan 2010 with seniority from 15 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40428) A/Brig SS Ratnaparkhi, Sikh LI, 01 Feb 2010, 01 Feb 2010 with seniority from 15 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40435) A/Brig GVG Prasad, Arty, 10 Jan 2010, 10 Jan 2010 with seniority from 16 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40445) A/Brig JS Gulati, AOC, 01 Feb 2011, 01 Feb 2011 with seniority from 16 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40445) A/Brig HS Faujdar, Punjab, 01 Feb 2010, 01 Feb 2010 with seniority from 16 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40471) A/Brig Mukesh Kumar, Garh Rif, 01 Feb 2010, 01 Feb 2010 with seniority from 16 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40824) A/Brig Ajay Seth, Garh Rif, 16 Jul 2010, 16 Jul 2010 with seniority from 17 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40487) A/Brig VS Dheman, AAD, 01 Aug 2010, 01 Aug 2010 with seniority from 17 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40500) A/Brig YK Joshi, VrC, Jak Rif, 01 Feb 2010, 01 Feb 2010 with seniority from 17 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40508) A/Brig SK Sawhney, Jak LI, 01 Feb 2010, 01 Feb 2010 with seniority from 17 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40534) A/Brig MN Bhurke, Sigs, 14 Aug 2009, 01 Feb 2010 with seniority from 18 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40542) A/Brig VV Reddy, Int, 20 Jul 2009, 01 Feb 2010 with seniority from 18 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40548) A/Brig Soban Singh, SM, 5 GR, 06 Feb 2010, 06 Feb 2010 with seniority from 18 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40568) A/Brig K Umamaheshwar, Arty (GC), 01 Mar 2010, 04 Mar 2010 with seniority from 18 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40590) A/Brig J Chaudhary, Sigs, 14 Aug, 2009, 01 Feb 2010 with seniority from 19 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40597) A/Brig Vipin Gupta, ASC, 01 Jul 2008, 09 Feb 2010 with seniority from 19 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40600) A/Brig YS Kumar, Arty, 01 Aug 2010, 01 Aug 2010 with seniority from 19 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40617) A/Brig SK Sharma, AOC, 01 Feb 2011, 01 Feb 2011 with seniority from 19 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40623) A/Brig PK Singh, Arty (GC), 01 Mar 2010, 04 Mar 2010 with seniority from 20 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-42241) A/Brig Ashish Kumar, EME, 21 Aug 2009, 01 Mar 2010 with seniority from 20 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37930) A/Brig SK Verma, Jak LI, 06 Feb 2010, 01 Mar 2010 with seniority from 20 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37931) A/Brig Nawnit Kumar, Kumaon, 19 Mar 2010, 19 Mar 2010 with seniority from 20 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37934) A/Brig VD Chowguli, VSM, Punjab, 19 Mar 2010, 19 Mar 2010 with seniority from 21 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37937) A/Brig VR Nevrekar, Arty, 26 Feb 2010, 01 Mar 2010 with seniority from 21 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37977) A/Brig A Umar Farook, Sigs, 14 Aug 2010, 01 Mar 2010 with seniority from 21 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-37993) A/Brig Sanjoy SOI, Naga, 19 Mar 2010, 19 Mar 2010 with seniority from 21 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40679) A/Brig AK Sanyal, Armd, 01 Feb, 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 22 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40680) A/Brig PN Rao, SM, Para, 19 Mar 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 22 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40682) A/Brig AS Karki, Mech Inf, 01 Nov 2010, 01 Nov 2010 with seniority from 22 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40685) A/Brig R Shukla, Arty, 01 May 2010, 07 May 2010 with seniority from 22 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40689) A/Brig RS Kochhar, EME, 21 Aug 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 23 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40693) A/Brig SK Panigrahi, Arty, 26 Feb 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 23 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40699) A/Brig Kemparaj S, Engrs, 14 Aug 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 23 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40700) A/Brig S Thapa, Arty (GC), 01 May 2010, 07 May 2010 with seniority from 24 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40702) A/Brig A Talwar, Mech Inf, 01 Nov 2010, 01 Nov 2010 with seniority from 24 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40703) A/Brig Harpal Singh, Engrs, 01 Jul 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 24 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40707) A/Brig DS Gill, Arty, 26 Feb 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 24 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40710) A/Brig S Mehta, 11 GR, 19 Mar 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 25 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40714) A/Brig BG Gilganchi, Sigs, 01 Nov 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 25 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40716) A/Brig MC Pande, Engrs, 01 Jul 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 25 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40720) A/Brig S Sharma, Dogra, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 26 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40721) A/Brig Prithi Singh, 1 GR, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 26 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40722) A/Brig Kulpreet Singh, Armd, 01 May 2010, 01 May 2010 with seniority from 26 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40724) A/Brig RS Pathania, Engrs, 01 Oct 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 26 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40727) A/Brig RK Chaudhary, VSM, Sigs, 01 Jan 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 27 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40736) A/Brig MK Mukherjee, Arty, 26 Feb 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 27 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40744) A/Brig S Thapar, Sikh LI, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 27 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40749) A/Brig PS Panesar, Sigs, 01 Jan 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 28 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40750) A/Brig M Srinivasan, Engrs, 01 Oct 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 28 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40755) A/Brig S Pratap, Sikh LI, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 29 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40757) A/Brig V Sahni, SM, 4 GR, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 29 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40760) A/Brig VS Sreenivas, VSM, Garh Rif, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 29 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40777) A/Brig MS Jaswal, SM, Raj Rif, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 29 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40783) A/Brig VKH Pingale, MLI, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 30 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40787) A/Brig RK Subramani, EME, 21 Aug 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 30 Jan 2009 without effect on pay and pension

(IC-40792) A/Brig DA Chaturvedi, SM, 3 GR, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 30 Jan 2009 without effect on pay and pension

- (IC-40794) A/Brig VS Narang, Sigs, 01 Jan 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 30 Jan 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40795) A/Brig S Narain, Rajput, 11 Jul 2010, 11 Jul 2010 with seniority from 31 Jan 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40796) A/Brig RPS Sandhu, SM, Jat, 16 Jul 2010, 16 Jul 2010 with seniority from 31 Jan 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40800) A/Brig VD Abraham, SM, EME, 21 Aug 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 31 Jan 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40801) A/Brig RK Bansiwali, Int, 01 Apr 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 31 Jan 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40804) A/Brig Digvijay Setia, Engrs, 01 Oct 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 01 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40812) A/Brig PM Vats, Mech Inf, 01 Nov 2010, 01 Nov 2010 with seniority from 01 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40815) A/Brig Anup Bhaskar, Sigs, 01 Jan 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 01 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40818) A/Brig RS Mann, Mech Inf, 01 Nov 2010, 01 Nov 2010 with seniority from 01 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40822) A/Brig S Ramakrishnan, Sigs, 01 Jan 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 02 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40825) A/Brig JC Rangra, Mahar, 16 Jul 2010, 16 Jul 2010 with seniority from 02 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40826) A/Brig SK Tiwari, Engrs, 01 Nov 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 02 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40841) A/Brig AA Bhat, Sigs, 01 Jan 2010, 01 Apr 2010 with seniority from 02 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40853) A/Brig S Chakravarti, ASC, 01 Jul 2008, 01 Apr 2010 with seniority from 03 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40861) A/Brig Sanjay Prasad, EME, 01 Dec 2009, 01 Apr 2010 with seniority from 03 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40864) A/Brig SD Vaze, MLI, 16 Jul 2010, 16 Jul 2010 with seniority from 03 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40867) A/Brig KJS Dhaliwal, SM, AAD, 01 Oct 2010, 01 Oct 2010 with seniority from 03 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40869) A/Brig RC Dwivedi, Punjab, 16 Jul 2010, 16 Jul 2010 with seniority from 04 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40873) A/Brig R Nagraj, Sigs (GC), 22 Jun 2010, 22 Jun 2010 with seniority from 04 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40876) A/Brig S Pachory, Mahar, 16 Jul 2010, 16 Jul 2010 with seniority from 04 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40882) A/Brig JK Tiwari, SC, 5 GR, 16 Jul 2010, 16 Jul 2010 with seniority from 04 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40884) A/Brig AS Harge, Assam, 19 Jul 2010, 19 Jul 2010 with seniority from 05 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40889) A/Brig NK Unni, Sigs, 01 Feb 2010, 22 Apr 2010 with seniority from 05 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40901) A/Brig K Mendonca, ASC, 01 Jul 2008, 23 Apr 2010 with seniority from 05 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40904) A/Brig KS Nijjar, Arty (GC), 22 Jun 2010, 22 Jun 2010 with seniority from 05 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40933) A/Brig MV Chandran, YSM, SM, Assam, 19 Jul 2010, 19 Jul 2010 with seniority from 06 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40934) A/Brig AK Sharma, Garh Rif, 19 Jul 2010, 19 Jul 2010 with seniority from 06 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40948) A/Brig KR Prasad, Arty, 26 Feb 2010, 01 May 2010 with seniority from 06 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40966) A/Brig S Suri, AAD, 01 Oct 2010, 01 Oct 2010 with seniority from 06 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40974) A/Brig PP Singh, ASC, 01 Jul 2008, 01 May 2010 with seniority from 07 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40981) A/Brig Narinder Singh, 4 GR, 21 Jul 2010, 21 Jul 2010 with seniority from 07 Feb 2009 without effect on pay and pension
- (IC-40982) A/Brig GS Aul, Arty, 26 Feb 2010, 01 May 2010 with seniority from 07 Feb 2009 without effect on pay and pension

(IC-41004) A/Brig Raman Mahna, ASC, 01 Jul 2008, 01 May 2010 with seniority from 07 Feb 2009 without effect on pay and pension

(IC-41025) A/Brig TSA Narayanan, EME, 05 Jan 2010, 01 May 2010 with seniority from 08 Feb 2009 without effect on pay and pension

(IC-42698) A/Brig S Rajaram, Sigs, 01 Feb 2010, 01 May 2010 with seniority from 08 Feb 2009 without effect on pay and pension

A CHANDRASHEKHAR  
Dir/MS(X)

#### ARMY BRANCH

No. 56, dated 18th January 2013—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

Col to be Brig (& Equivalent)

N Lamba (MR-04731L), 13 Dec 2011, with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Dec 2011

Previous Gazette Notification in respect of the officer published in Gazette of India dated 01 Sep 2012 is hereby cancelled

Lt Col to be Col (& Equivalent)

S Viswanath (MR-06307F), 20 Jun 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 26 Feb 2011

Mihir Gupta (MR-06150M), 17 Jun 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 01 Apr 2011

Rajat Shukla (MR-06151P), 17 Jun 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 03 Apr 2011

N Shridhar (MR-06281X), 20 Dec 2011, with notional seniority without effect on pay and pension from 07 Sep 2011

RAJVIR SINGH  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 57, dated 18th January 2013—The President is pleased to make the following promotions. These promotions will be subject to final outcome of SLP (Civ) No. 1752-1754/2011

titled Secretary, Ministry of Defence Vs Babita Punia & Others :—

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

Maj to be Lt Col (Provisional)

(WS-00184) Anupama Dalal, AOC, 24 Aug 2010 (But pay & allowances wef 24 Aug 2010)

VIHAG SNEHAL  
Dy Dir  
MS-8C

#### ARMY BRANCH

No. 58, dated 21st January 2013—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### INFANTRY

#### LADAKH SCOUTS

To be Sub Maj (RT)

Sub (RT) Jamyang Tsumtim (JC-164337Y), 01 Mar 2012

To be Nb Sub (RT) - Direct Entry

Nb Sub (RT) Abdul Jaleel P (JC-588594H), 09 Jul 2011

(Granted ante date seniority without effect on pay and allowances)

#### SPECIAL LIST

#### JAK RIF

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Bhagi Rath (JC-161908F), Jak Rif, 07 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 May 2012)

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Nazrul Haque (JC-579048P), Jak Rif, 18 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2012)

Nb Sub (RT) Sunil Kumar Tiwari (JC-579047M), Jak Rif, 17 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2012)

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Rect (RT) Ghan Shyam Shukla (No. 3003810W now JC-581400M), Jak Rif, 04 Feb 2012

## THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD/Clk)

Hav Raj Kumar Prasad (No. 4269754H now JC-560776A),  
01 Aug 2012/27 Apr 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 27 Apr 2012 without effect on pay and allces)

CHM Lukas Sanga (No. 4271162X now JC-560777H),  
11 Jul 2012/01 Jun 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jun 2012 without effect on pay and allces)

CQMh Nitya Nanda Naik (No. 4271382F now JC-560778L),  
11 Jul 2012/01 Jul 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jul 2012 without effect on pay and allces)

Hav Awadhesh Pathak (No. 4268982Y now JC-560779N),  
01 Aug 2012/01 Feb 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Feb 2012 without effect on pay and allces)

CHM Sudama Pathak (No. 4268853Y now JC-560780H),  
01 Aug 2012/01 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)

Hav Adwent Minj (No. 4269712W now JC-560781L),  
01 Aug 2012/01 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)

Hav Rajindra Kumar Soy, SM (No. 4271308A now JC-  
560782N), 01 Aug 2012/01 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)

CHM Kashi Nath Mahto (No. 2484390W now JC-  
560783W), 01 Aug 2012/01 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)

Hav Prithvi Raj Chowhan (No. 4269849H now JC-560784Y),  
01 Aug 2012/01 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)

Hav/Clk (SD) Birendra Kumar Roy (No. 4269924F now  
JC-560785F), 01 Aug 2012/14 Jul 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 14 Jul 2012 without effect on pay and allces)

Hav/Clk (SD) Prem Kumar (No. 4269633F now JC-560786K),  
23 Aug 2012/01 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)

Hav Dharmendra Prasad Singh (No. 4270792L now JC-  
560787M), 16 Aug 2012/26 Feb 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 26 Feb 2012 without effect on pay and allces)

Hav Shambhu Kumar Singh (No. 4270765F now JC-  
560788P), 16 Aug 2012/01 Mar 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Mar 2012 without effect on pay and allces)

Hav Shobh Nath Singh (No. 4270768P now JC-560789X),  
16 Aug 2012/01 Apr 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Apr 2012 without effect on pay and allces)

CHM Dharmendra Kumar Singh (No. 4270777W now JC-  
560790M), 29 Aug 2012/01 May 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 May 2012 without effect on pay and allces)

Hav Dharendra Kumar (No. 4270780W now JC-560791P),  
16 Aug 2012/16 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 16 Aug 2012 without effect on pay and allces)

Hav Ashok Kumar Prasad (No. 2594157L now JC-  
560792X), 26 Jul 2012/01 May 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 May 2012 without effect on pay and allces)

Hav Sheo Shankar Yadav (No. 2594209W now JC-  
560793A), 27 Aug 2012/01 May 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 May 2012 without effect on pay and allces)

Hav Krishna Prasad Sah (No. 4270753M now JC-560794H),  
16 Aug 2012/01 Jun 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jun 2012 without effect on pay and allces)

CHM Madan Prasad Singh (No. 4271048A now JC-  
560795L), 16 Aug 2012/01 Jun 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jun 2012 without effect on pay and allces)

Hav Dharendra Kumar Singh (No. 4271004H now JC-  
560796N), 16 Aug 2012/01 Jun 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jun 2012 without effect on pay and allces)

CHM Panchu Oraon (No. 4271911H now JC-560797W),  
04 Sep 2012/01 Jul 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jul 2012 without effect on pay and allces)

Hav Lal Deo Oraon (No. 4271997M now JC-560798Y),  
04 Sep 2012/01 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)

Hav Dhruv Narayan Thakur (No. 4268735L now JC-560799F), 25 Aug 2012/01 Aug 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2012 without effect on pay and allces)

CHM Bimal Kumar Nayak (No. 4268202H now JC-560800L), 01 Sep 2012/01 Sep 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allces)

Hav Sangada Bharat Sinh Hari Sinh (No. 4271492W now JC-560801N), 01 Sep 2012/01 Sep 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allces)

CQMH Sikur Sawaiyan (No. 4271549A now JC-560802W), 07 Sep 2012/01 Sep 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allces)

Hav/Clk (SD) Surender Singh (No. 4270217K now JC-560803Y), 01 Sep 2012/01 Sep 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allces)

Hav Chander Deo Prasad Yadav (No. 4269704X now JC-560804F), 15 Sep 2012/01 Sep 2012(S)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allces)

#### THE GARHWAL RIFLES

##### To be Nb Sub

Hav Neeraj Pal Singh (No. 4086391W now JC-531246H), 27 Aug 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Keshwa Nand (No. 4072084N now JC-531247L), 29 Aug 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Ram (No. 4071003W now JC-531251N), 01 Aug 2012

Hav Nihal Singh (No. 4071897X now JC-531252W), 01 Aug 2012

Hav Jabar Singh Chauhan (No. 4072171F now JC-531253Y), 06 Sep 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Trilok Singh (No. 4072560F now JC-531254F), 23 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Singh (No. 4073508L now JC-531255K), 01 Aug 2012

Hav Yogamber Singh (No. 4072592K now JC-531256M), 23 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jagmohan Singh (No. 4071919L now JC-531257P), 01 Aug 2012

Hav Diggpal Puri (No. 4071933X now JC-531258X), 01 Aug 2012

Hav Basudev Singh (No. 4071980P now JC-531259A), 01 Aug 2012

Hav Saukar Singh Rawat (No. 4072053N now JC-531260P), 16 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Makan Singh (No. 4073820N now JC-531261X), 01 Aug 2012

Hav Goverdhan Lal, SM (No. 4074019M now JC-531262A), 01 Aug 2012

Hav Tikendra Singh (No. 4074096F now JC-531263H), 01 Aug 2012

Hav Dhan Singh (No. 4074395A now JC-531264L), 01 Aug 2012

Hav Pramod Kumar (No. 4071570Y now JC-531265N), 01 Aug 2012

Hav Rakesh Kumar Dhasmana (No. 4071777Y now JC-531266W), 01 Sep 2012/17 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Rax Pal Singh (No. 4070978L now JC-531268F), 01 Sep 2012

Hav Gajpal Singh (No. 4070554P now JC-531269K), 01 Sep 2012

Hav Pitambar Singh (No. 4071642X now JC-531270Y), 01 Sep 2012

Hav Kulbeer Singh (No. 4072213H now JC-531271F), 01 Sep 2012

Hav Chandra Mohan Singh (No. 4071671M now JC-531272K), 01 Sep 2012

##### To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Shiv Kumar (No. 8032822H now JC-531249W), 01 Aug 2012

Hav (Clk SD) Sanjay Kumar (No. 4072477K now JC-531250L), 01 Aug 2012

Hav (Clk SD) Hans Raj (No. 4072868P now JC-531267Y), 01 Sep 2012

## THE GRENADIERS

## To be Nb Sub

Hav Sumer Singh (No. 2684146A now JC-451407M),  
30 Nov 2011

Hav Ram Bali Singh (No. 2682787N now JC-451408P),  
01 Jul 2012

Hav Mirza Nihalooddin Beg (No. 2685311M now JC-451409X), 01 Jul 2012

Hav Naushad (No. 2687123K now JC-451410M), 01 Jul 2012

Hav Abbas Khan (No. 2684562K now JC-451411P),  
06 Jul 2012

Hav Dig Ram Singh (No. 2684987H now JC-451412X),  
15 Jul 2012

Hav Som Datt (No. 2683608P now JC-451413A), 22 Jul 2012

Hav Veer Singh (No. 2685457A now JC-451414H),  
01 Aug 2012

Hav Veer Singh Dangi (No. 2683182Y now JC-451415L),  
01 Aug 2012

Hav Rajveer Singh (No. 2682521F now JC-451416N),  
01 Aug 2012

Hav Pradeep Kumar Singh (No. 2682567K now JC-451417W), 01 Aug 2012

Hav Udami Ram Gurjar (No. 2683173X now JC-451418Y),  
01 Aug 2012

Hav Narayan Singh (No. 2684037N now JC-451419F),  
01 Aug 2012

Hav Maharaj Singh Gurjar (No. 2683825L now JC-451420W), 01 Aug 2012

Hav Bansilal (No. 2683699K now JC-451421Y), 01 Aug 2012

Hav Altaf Hussain (No. 2684058K now JC-451422F),  
01 Aug 2012

Hav Surender Pal Singh (No. 2685347L now JC-451423K),  
01 Aug 2012

Hav Rajendra Singh Lunayach (No. 2686039X now JC-451424M), 01 Aug 2012

Hav Sumer Singh (No. 2686123X now JC-451425P),  
01 Aug 2012

Hav Pradeep Singh (No. 2685927A now JC-451426X),  
01 Aug 2012

Hav Harendra Singh (No. 2682556P now JC-451427A),  
17 Aug 2012

## JAK RIF

## To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Anil Kumar Thapa (No. 13756037A now JC-581525K),  
23 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 02 Jul 2012)

Hav Ghanshyam Singh (No. 13751588F now JC-581526M),  
01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 16 Jul 2012)

Hav Rajinder Kumar (No. 13752196A now JC-581527P),  
31 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 23 Jul 2012)

Hav Ved Prakash (No. 13752805Y now JC-581528X),  
01 Aug 2012

Hav Rakesh Patial (No. 13752995W now JC-581529A),  
01 Aug 2012

Hav Naresh Kumar (No. 13754179Y now JC-581530P),  
23 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Gurdip Singh (No. 13753373F now JC-581531X),  
01 Sep 2012

Hav Shaqil Ahmad (No. 13752825M now JC-581532A),  
01 Sep 2012

Hav Dev Raj (No. 13753058L now JC-581533H), 01 Sep 2012

Hav Tota Ram (No. 13753107H now JC-581534L), 01 Sep 2012

Hav Mohan Singh (No. 13753108L now JC-581535N),  
01 Sep 2012

Hav Haqumat Raj (No. 13753459A now JC-581536W),  
01 Sep 2012

Hav Devi Singh (No. 13751695H now JC-581537Y),  
01 Sep 2012

Hav Jagga Ram (No. 13754036Y now JC-581538F),  
01 Sep 2012

Hav Saleem Mohammad (No. 13754505W now JC-581539K), 08 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Sep 2012)

Hav Nagar Mal (No. 13753465N now JC-581540Y),  
05 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Sep 2012)

Hav Gurdeep Singh (No. 13756701P now JC-581541F),  
01 Sep 2012

Hav Tarsem Singh (No. 13756711Y now JC-581542K),  
01 Sep 2012

Hav Bansi Lal (No. 13752092Y now JC-581509M), 11 Apr  
2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Jan 2012)

Hav Malkiat Singh (No. 13755068N now JC-581510F),  
10 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 15 Feb 2012)

Hav Darshan Chand (No. 4071527X now JC-581511K),  
06 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Mar 2012)

Hav Tarlok Chand (No. 4071842N now JC-581512M),  
10 Apr 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Mar 2012)

Hav Ashwani Kumar (No. 13752607N now JC-581513P),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Vijay Kumar (No. 13752673W now JC-581514X),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Subhash Chand (No. 13753231K now JC-581515A),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Subash Chander (No. 13753148M now JC-581516H),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Salinder Singh (No. 13754599Y now JC-581517L),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Arjun Singh (No. 13754618Y now JC-581518N),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Yash Paul Singh (No. 13754662H now JC-581519W),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Vijay Kumar (No. 13753472K now JC-581520L),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Surjeet Singh (No. 13753686A now JC-581521N),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Karam Singh Dogra (No. 13753690H now JC-  
581522W), 01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Tarsem Lal (No. 13753965L now JC-581523Y),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Desh Raj Sharma (No. 13754181W now JC-581524F),  
01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

To be Subs Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Vijaya Shanker Singh Yadava (No. 3989660H  
now JC-581484L), 03 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 May 2012)

Hav Clk (SD) John KV (No. 13753931X now JC-581485N),  
05 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Jul 2012)

Hav Clk (SD) TV Mathu (No. 13753934L now JC-  
581486W), 01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Jul 2012)

Hav Clk (SD) Rup Singh (No. 3990128H now JC-581507F),  
17 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)

Hav Clk (SD) Jai Ram Rathi (No. 13752965Y now JC-  
581508K), 01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Sep 2012)

To be Sub Nb Sub (GD)

Hav Khem Bahadur Thapa (No. 13752866W now JC-  
581543M), 01 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Aug 2012)



Hav Suresh Kumar (No. 13752759P now JC-581544P),  
08 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 05 Aug 2012)

Hav Mahipal Guleria (No. 13754134Y now JC-581545X),  
10 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Sep 2012)

Hav Yash Paul (No. 13752876A now JC-581546A),  
01 Sep 2012

Hav Pawan Kumar Sharma (No. 13752987X now JC-  
581547H), 01 Sep 2012

Hav Rachhpal Dass (No. 13753470Y now JC-581548L),  
05 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Sep 2012)

#### THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Jagat Singh Bohra (No. 13618042M now JC-  
413640W), 01 Apr 2012

Hav Dharam Singh (No. 13618054F now JC-413641Y),  
01 Apr 2012

Hav Prem Pal Singh Gosain (No. 13618105K now JC-  
413642F), 01 Apr 2012

Hav Sanjoy Chettri (No. 13620105H now JC-413643K),  
10 Mar 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 Jan 2012)

Hav Ramesh Chand (No. 13620680K now JC-413644M),  
07 Mar 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 Jan 2012)

Hav Nilajagi Shri Shail Parapa (No. 2789602Y now JC-  
413645P), 01 Mar 2012

Hav Prakash Chandra (No. 4185012X now JC-413646X),  
01 Mar 2012

Hav Vinod Kumar (No. 13619353M now JC-413647A),  
01 Apr 2012

Hav Ramesh Singh (No. 13620701P now JC-413648H),  
07 Mar 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 Jan 2012)

Hav Banwari Lal Meena (No. 2685051M now JC-413649L),  
19 Apr 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 Jan 2012)

Hav Gurdeep Singh (No. 3395713P now JC-413650A),  
03 May 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 May 2012)

Hav Dhan Bahadur Kamu Magar (No. 5453536A now JC-  
413651H), 03 May 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 May 2012)

Hav Gopal Singh Negi (No. 13618165Y now JC-413652L),  
01 May 2012

Hav Jagtar Singh (No. 13618013X now JC-413653N),  
24 May 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 02 Apr 2012)

Hav Rajinder Singh (No. 13619437A now JC-413654W),  
01 May 2012

Hav Raj Kumar Prasad (No. 13619784Y now JC-413655Y),  
23 Apr 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 12 Feb 2012)

Hav Kamble Narayan Chandar (No. 13620848L now JC-  
413656F), 04 Apr 2012

Hav Mane Bajarang Bhim Rao (No. 13620971K now JC-  
413657K), 15 Apr 2012

Hav Kundan Singh Rawat (No. 13618191A now JC-  
413658M), 01 Jun 2012

Hav Krishna Chandra (No. 13618878K now JC-413659P),  
06 Jun 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 28 Apr 2012)

Hav Subhasish Debnath (No. 13619667N now JC-  
413660K), 09 Mar 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 Jan 2012)

Hav Soshil Kumar (No. 13619694X now JC-413661M),  
09 Mar 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 Jan 2012)

Hav Satnam Singh (No. 13618727L now JC-413663X),  
18 Jun 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 29 Apr 2012)

Hav Gopal Singh (No. 13619021H now JC-413664A),  
01 Jun 2012

Hav Pawan Kumar (No. 13619817Y now JC-413665H),  
18 Jun 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and  
allces wef 01 Jun 2012)

Hav Bhupendra Singh (No. 13620910M now JC-413666L),  
07 Jun 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 10 Apr 2012)

Hav Bhagat Singh (No. 13621021F now JC-413667N),  
01 Jun 2012

Hav Narender Singh (No. 13759928N now JC-413669Y),  
03 Jul 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jul 2012)

Hav Man Singh (No. 13619040N now JC-413670N),  
01 Jul 2012

Hav Sailendra Kumar Padhi (No. 13619831L now JC-413671W), 02 Jul 2012\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 02 Jun 2012)

Hav Piar Chand (No. 13621069P now JC-413674K),  
01 Aug 2012

Hav Lal Bahadur Tamang, SC (No. 9422500Y now JC-413675M), 01 Aug 2012

Hav Buta Singh (No. 2487264P now JC-413676A),  
01 Aug 2012

#### To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk (SD) Sudhir J (No. 13618176L now JC-413662P),  
01 Jul 2012

Hav Clk (SD) Ajay Singh (No. 13619802W now JC-413672Y), 01 Aug 2012

Hav Clk (SD) Awatar Singh (No. 13620295A now JC-413673F), 01 Aug 2012

#### THE KUMAON REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Fateh Singh (No. 4184451W now JC-541115L),  
23 Aug 2012/27 Jun 2012\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Daya Kishan (No. 4182418A now JC-541116N),  
01 Aug 2012

Hav Kavindra Singh (No. 4182462K now JC-541117N),  
01 Aug 2012

Hav Anand Singh (No. 4183526W now JC-541118Y),  
01 Sep 2012

Hav Sunder Singh (No. 4181027H now JC-541119F),  
01 Sep 2012

Hav Rajendra Singh Holaria (No. 4181028L now JC-541120W), 01 Sep 2012

Hav Narendra Singh Rawat (No. 4183055N now JC-541121Y), 01 Sep 2012

Hav Suresh Chandra Joshi (No. 4183220N now JC-541122F), 01 Sep 2012

Hav Harendra Singh Bisht (No. 4183318F now JC-541123K), 01 Sep 2012

Hav Jiwan Chandra Bhatt (No. 4182788A now JC-541124M), 01 Sep 2012

#### NAGA REGT

Hav SR Thangam Anal (No. 14702916W now JC-590324M), 21 Aug 2012/29 Jun 2012\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Langhu Bungwar Anal (No. 14702888P now JC-590325P), 18 Aug 2012/29 Jun 2012\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Singh (No. 4184243F now JC-541125P),  
10 Sep 2012/19 Aug 2012\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagwat Singh Patwal (No. 4185060X now JC-541126X), 11 Sep 2012/01 Sep 2012\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Umesh Singh Adhikari (No. 4182996P now JC-541127A), 01 Sep 2012

Hav Indra Singh (No. 4183020X now JC-541128H),  
01 Sep 2012

Hav Chandra Shekhar (No. 4183070H now JC-541129L),  
01 Sep 2012

Hav Balam Singh (No. 4183402F now JC-541130A),  
01 Sep 2012

Hav Giresh Chandra Joshi (No. 4183753W now JC-541131H), 01 Sep 2012

Hav Chandra Shekhar (No. 4182526K now JC-541132L),  
01 Sep 2012

#### THE DOGRA REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Sakinder Pal (No. 3990882K now JC-521559N),  
21 Jun 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Hardip Singh (No. 3990935X now JC-521560H),  
18 Jun 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh (No. 3990936A now JC-521561L),  
21 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Garu Ram (No. 3394422H now JC-521562N), 30 Jun  
2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 13 May 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kishor Kumar (No. 3991270Y now JC-521563W),  
11 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 11 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 3394425W now JC-521564Y),  
06 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Harvinder Singh Rana (No. 3990087K now JC-  
521565F), 09 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Surinder Singh (No. 3990002H now JC-521566K),  
27 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Musn)

Hav/Musn Jai Ram Sharma (No. 3991479K now JC-  
521567M), 14 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 May 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav Kewal Singh (No. 3989926K now JC-521568P),  
25 Jun 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sat Paul (No. 3989981A now JC-521569X),  
02 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Nirmal Singh (No. 3989633Y now JC-521570M),  
31 Jul 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mahabir (No. 3990099Y now JC-521571P), 27 Jul  
2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 06 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Mohinder Singh (No. 3990091M now JC-521572X),  
08 Aug 2012+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 13 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

JAK LI

To be Nb Sub (Clk SD) & (GD) Category

Hav (Clk SD) Pooran Prakash (No. 9096081N now JC-  
594114K), 01 Aug 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 )

Hav Swarn Lal (No. 9089586F now JC-594115M), 16 Jul  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 )

Hav Mohd Khaliq (No. 9096160H now JC-594116P),  
29 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 )

Hav Kuldeep Singh (No. 9089407W now JC-594117X),  
29 Jun 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 )

Hav Surinder Singh Manhas (No. 9089321X now JC-  
594118A), 16 Jul 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jun 2012 )

Hav Shallo Ram (No. 9094996F now JC-594119H), 25 Jul  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jun 2012 )

Hav Kirpal Singh Chiv (No. 9089401P now JC-594120X),  
16 Jul 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 )

Hav Jagdish Singh (No. 9089422L now JC-594121A),  
16 Jul 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 )

Hav Mohinder Singh (No. 9089619F now JC-594122H),  
01 Jul 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 )

Hav Karan Singh (No. 9095398W now JC-594123L), 25 Jul  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 )

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 9096437W now JC-  
594124N), 16 Jul 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 )

Hav Sham Singh Raja (No. 9089028A now JC-594125W),  
23 Jul 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jul 2012 )

Hav Mohd Ishaq (No. 9094496F now JC-594126Y), 01 Aug  
2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 )

Hav (Clk SD) Rohitashw Kumar (No. 9095843K now JC-594038H), 01 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 )

Hav (Clk SD) Om Prakash (No. 9095937F now JC-594039L), 02 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 )

Hav (Clk SD) Ashok Kumar (No. 9095949W now JC-594040A), 02 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 )

Hav Ramesh Lal Salgotra (No. 9089406N now JC-594041H), 23 Nov 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 )

Hav Jagjeet Singh (No. 9094259A now JC-594042L), 04 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 )

Hav Kewal Singh Choudhary (No. 9088656H now JC-594043N), 13 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 )

Hav Romesh Lal (No. 9089020N now JC-594044W), 20 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 )

Hav (Clk SD) Ravinder Kumar (No. 9095942M now JC-594045Y), 02 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Nov 2011 )

Hav Mohd Arshad (No. 9094529K now JC-594046F), 27 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Dec 2011 )

Hav Darshan Singh (No. 9088977A now JC-594047K), 30 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 )

Hav Vikram Jeet Singh Bhadwal (No. 9089815F now JC-594048M), 02 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 )

Hav Iqbal (No. 9089670F now JC-594049P), 02 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Dec 2011 )

Hav (Clk SD) Ranveer Singh Shekhawat (No. 9095827M now JC-594050K), 18 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 )

Hav Tarsem Singh (No. 9089428M now JC-594051M), 02 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 )

Hav Jagdish Raj (No. 9089050L now JC-594052P), 04 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 )

Hav Rachpal Singh (No. 9095916L now JC-594021P), 01 Oct 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 )

To be Nb Sub (GD) Category

Hav Ravinder Kumar (No. 9089070Y now JC-594087L), 24 Apr 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 )

Hav Ram Paul Dabgotra (No. 9088353N now JC-594088N), 29 Apr 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Apr 2012 )

Hav Surjeet Kumar (No. 9088408M now JC-594089W), 29 Apr 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Apr 2012 )

Hav Kartar Singh (No. 9088502W now JC-594090L), 01 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

Hav Sita Ram (No. 9089817M now JC-594091N), 02 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

Hav Mohd Sheraz (No. 9089942W now JC-594092W), 02 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

Hav Parshotam Singh (No. 9094325X now JC-594093Y), 02 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

Hav Mushtaq Hussain (No. 9089668K now JC-594094F), 01 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

Hav Ishfiq Ahmed (No. 9089669M now JC-594095K), 02 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

Hav Krishan Lal (No. 9094666H now JC-594096M), 01 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

Hav Omkar Singh (No. 9094371M now JC-594097P), 01 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

Hav Gulam Rasool (No. 9095641H now JC-594098X), 01 May 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2012 )

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Nb Sub Arun Kumar (— now JC-471076X), 01 Sep 2012/ 07 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2012 without effect on pay & allces)

Nb Sub Vijay Kumar (— now JC-471077A), 01 Sep 2012/07 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2012 without effect on pay & allces)

Nb Sub Jaideep (— now JC-471078H), 01 Sep 2012/07 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 May 2012 without effect on pay & allces)

Hav Nathu Singh (No. 2889830W now JC-471079L), 26 Apr 2012/21 Dec 2011\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Dec 2011 without effect on pay & allces)

Hav Ajeet Kumar (No. 2887218N now JC-471080A), 09 Jul 2012/10 May 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 May 2012 without effect on pay & allces)

Hav Ashok Kumar (No. 2887369M now JC-471081H), 05 Aug 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay & allces)

Hav Jai Ram Singh Khakhal (No. 2886356H now JC-471082L), 11 Jul 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay & allces)

Hav Lila Ram (No. 2887578K now JC-471083N), 09 Jul 2012/01 Jun 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2012 without effect on pay & allces)

Hav Clk Hanuman Prasad (No. 2885849X now JC-471084W), 23 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allces)

Hav Clk Shyopal Singh (No. 2887799W now JC-471085Y), 04 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allces)

Hav Clk Ashok Kumar Pandey (No. 2887877H now JC-471086F), 05 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allces)

Hav Clk Mahipal Singh (No. 2888268L now JC-471087K), 04 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allces)

Hav Sayar Singh (No. 2885997H now JC-471088M), 20 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allces)

Hav Shivaji Singh (No. 2888634K now JC-471089P), 02 Jul 2012/01 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay & allces)

Hav Clk Malkiat Singh (No. 2888307Y now JC-471090K), 01 Aug 2012

Hav Clk Ajay Sharma (No. 2888369Y now JC-471091M), 01 Aug 2012

Hav Ashok Kumar (No. 2886203Y now JC-471092P), 11 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay & allces)

Amrit Pal (No. 2889631H now JC-471093X), 01 Aug 2012

Hav Parasa Ram Saran (No. 2886933K now JC-471094A), 01 Aug 2012

Hav Praval Pratap Singh (No. 2886490N now JC-471095H), 14 Aug 2012/01 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay & allces)

8 GR

To be Nb Sub (Clk)/(GD)

Hav (Clk) Anil Kumar Prajapati (No. 6389823W now JC-623994W), 16 May 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2012 without effect on pay & allces)

Hav Sonam Tshering Bhutia (No. 5755980N now JC-623995Y), 08 May 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Apr 2012 without effect on pay & allces)

Hav Dhan Bahadur Rana Magar (No. 5751848W now JC-623996F), 01 May 2012

Hav Bishnu Kumar Pun (No. 5752419F now JC-623997K), 01 May 2012

Hav Sib Bahadur Thapa (No. 5752485K now JC-623998M), 01 Jul 2012

#### THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Jai Kishan (No. 3184264K now JC-490854M), 20 Jul 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Jun 2012 without effect on pay & allces)

Hav Harbilas Singh (No. 3184266M now JC-490855P), 14 Jul 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jun 2012 without effect on pay & allces)

Hav Ram Kumar (No. 3180876F now JC-490856X), 31 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay & allces)

Hav Suresh Kumar (No. 3184601L now JC-490857A), 17 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay & allces)

Hav Gokul Ram (No. 3184975F now JC-490858H), 08 Aug 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Aug 2012 without effect on pay & allces)

Hav Sukhendra Kumar (No. 3184632L now JC-490859L), 01 Sep 2012

Hav Jaibir Singh (No. 3185044K now JC-490860A), 01 Sep 2012

Hav Madan Singh Kulhari (No. 3181765W now JC-490861H), 01 Sep 2012

Hav Bala Ram Dukia (No. 3181891H now JC-490862L), 01 Sep 2012

Hav Nabab Singh (No. 3185265W now JC-490863N), 04 Sep 2012\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2012 without effect on pay & allces)

Hav Pardeep (No. 3185061K now JC-490864W), 01 Sep 2012

Hav Daya Kishan (No. 3192391L now JC-490865Y), 01 Sep 2012

Hav Jai Jai Baisnojeet (No. 3184553W now JC-490866F), 01 Sep 2012

Hav Clk Sunil Kumar Singh (No. 3183804H now JC-490867K), 01 Aug 2012

Hav Clk Daya Ram (No. 3183915A now JC-490868M), 01 Aug 2012

#### THE MARATHA LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Utekar Rajesh Dinkar (No. 2788664M now JC-460567N), 11 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 20 May 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Gawade Ramchandra Dattaram (No. 2791704N now JC-460568W), 12 Jul 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Patle Rishipal Chunnilal (No. 2788270N now JC-460569Y), 20 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 13 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Shivaji Janardan (No. 2790425W now JC-460570N), 27 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Raja Mitra (No. 2789595N now JC-460571W), 18 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav More Krishana Sahebrao (No. 2789351A now JC-460574K), 01 Sep 2012

Hav Kale Pravin Prabhakar (No. 2789271H now JC-460575M), 01 Sep 2012

Hav Patil Rajeshkumar Vinayak (No. 2790178N now JC-460576P), 07 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Umesh Kumar Singh (No. 2786847K now JC-460572Y), 01 Sep 2012

Hav Clk (SD) Vijaya Kumar Kurup K (No. 2786849P now JC-460573F), 01 Sep 2012

To be Nb Sub (GD)

Hav Kowadkar Ganapati Gundu (No. 2788233A now JC-460577X), 05 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 13 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav M Sharbthutheen (No. 2788542H now JC-460578A), 05 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 13 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Vinod Dayaram (No. 2789981A now JC-460579H), 05 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 13 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Yallapa Sindolkar (No. 2788234H now JC-460580X), 05 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Karanjekar Dilip Bhayyalal (No. 2791608Y now JC-460581A), 05 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Mar 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Laxman Patil (No. 2791655W now JC-460582H), 05 Aug 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Dudhal Popat Pralhad (No. 2789185X now JC-460583L), 17 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Chavan Suresh Karbhari (No. 3187817X now JC-460584N), 17 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jul 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Prakash Patil (No. 2784916W now JC-460585W), 17 Sep 2012\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Sep 2012 without effect on pay and allowances)

#### THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Raja Singh (No. 3391691K now JC-500496H), 29 Aug 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 21 May 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Jaspal Singh (No. 3391628P now JC-500497L), 01 Sep 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldip Singh (No. 3392384Y now JC-500498N), 13 Aug 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh (No. 3392649X now JC-500499W), 29 Aug 2012

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Aug 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Janak Singh (No. 3392369K now JC-500500A), 01 Sep 2012

To be Nb Sub (Religious Teacher)

LNk Davinder Singh (No. 13764590X now JC-500495A), 30 Jun 2012

#### SPECIAL LIST

JAK RIF

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Rect (RT) Krishna Murari Tripathi (No. 581401P now JC-581401P), JAK Rif, 30 Jun 2012

#### THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Rect (RT) Sanat Kumar Mishra (No. 490727X now JC-490727X), 19 Nov 2011

SUBHABARTA KARMAKAR  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 59, dated 21st January 2013—The Competent Authority has promoted the following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Service as Section Officer

(Group 'B' Gazetted) in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from and upto the dates mentioned against their respective names or till retirement or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

S Nagarajan, 15 May 1954, 04 Sep 2012 to 17 May 2013

B S Negi, 01 Jun 1957, 03 Oct 2012 to 17 May 2013

2. The appointment on ad hoc basis will not bestow on the person a claim for regular appointment.

3. The service rendered on ad hoc basis in the grade of Section Officer would not count for the purpose of seniority in that grade and of eligibility for promotion to the next higher grade.

The Competent Authority has promoted the following Assistants (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) on regular basis in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on the basis of the LDCE Examination with effect from the date mentioned against their respective names :—

Shiv Kumar, 23 Feb 1971, 2008, 22 Sep 2008

Ashis Ray, 07 Jul 1969, 2008, 24 Oct 2007

ABHAY SINGH  
Dy CAO (A)

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 60, dated 22nd January 2013—The President is pleased to make the following appointment/promotions :—

To be Sub Clk (SD)

Surjit Singh (JC-763618A), 01 Oct 2012

Rajesh Kumar Rai (JC-763606L), 01 Oct 2012

Suresh Kumar (JC-763619H), 01 Oct 2012

Md Abdul Salam (JC-764261F), 01 Oct 2012

Unnikrishnan V N (JC-763291M), 01 Oct 2012

Kaushik Kumar (JC-763265L), 01 Oct 2012

Jagmal Singh (JC-763603X), 01 Oct 2012

Md Nasib Ali (JC-763614K), 01 Oct 2012

Chandra Bhan (JC-763351W), 01 Oct 2012

Tribhovan Nanji Parmar (JC-763610N), 01 Oct 2012

Pradip Kumar Jha (JC-763611W), 01 Oct 2012

Lala Ram (JC-763165A), 01 Oct 2012

Manik Lal Nath (JC-763746X), 01 Nov 2012

To be Sub Opr & Dvr (REC)

Harihar Singh (JC-765243L), 18 Aug 2012/01 Apr 2012\*

Badan Singh (JC-765869H), 01 Oct 2012/01 Apr 2012\*

Ram Babu Singh (JC-765883P), 22 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Saudan Singh (JC-765720F), 13 Oct 2012/01 Apr 2012\*

Mahaveer Singh (JC-766284F), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Bhikhari Mahto (JC-766200H), 14 Jul 2012/01 Jul 2012\*

Rameshwar Dayal (JC-766113P), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Bipin Kumar Pandey (JC-766282W), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Sunit Singh (JC-765633N), 04 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Raj Kumar (JC-765895K), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Khot Kundlik Dhondiba (JC-765232Y), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Sushil Sinha (JC-765893Y), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Ram Kumar Yadav (JC-765636F), 18 Oct 2012/01 Apr 2012\*

Suresh Chandra (JC-766192P), 20 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Anil Kumar Keshri (JC-766191H), 06 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Palaniyasan S (JC-765882M), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Bhagat Singh (JC-766589F), 01 Nov 2012

Ishakall Khan (JC-766105W), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Yogender Nath (JC-766203W), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

To be Sub Tech (SA)

Pratap Chandra Mohanty (JC-765163N), 12 Oct 2012/  
01 Aug 2012\*

Ranjit Singh (JC-764550W), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Shiv Chandra Roy (JC-764544H), 05 Oct 2012/01 Jul 2012\*

Rajbir Singh (JC-764553K), 01 Oct 2012/01 Jul 2012\*

To be Sub Dvr (MT)

Prem Chand Meena (JC-764396H), 11 Oct 2012/01 Oct 2012\*

Sujit Kumar Singh (JC-764395A), 01 Oct 2012

Suresh Chandra Pradhan (JC-764399W), 01 Oct 2012

Dinesh Goswami (JC-764337W), 01 Oct 2012

To be Sub SKT

Beloshe Bharat Babu Rao (JC-764591A), 08 Sep 2012/  
13 Dec 2012\*

Pujari Dipak Shamrao (JC-764876M), 25 Sep 2012/01 Dec  
2012\*

\*(Gtd ante dated seniority)

S K TANWAR  
Under Secy

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 61, dated 22nd January 2013—The President is  
pleased to make the following promotion :—

D S Jairwar to be Stores Officer, Gr 'B' (Gazetted) on  
probation for two years in DRDO with effect from 24 Aug  
2012 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) and  
Grade Pay Rs. 4,600/-

Mukesh Kumar, Admin Officer, Gr 'B' (Gazetted) in DRDO  
with effect from 12 Jun 2012 (F/N) Pay Band of Rs. 9,300—  
34,800/- (PB-2) and Grade Pay Rs. 4,600/-

RAJEEV RANJAN KHAN  
Dy Dir (Pers)

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 62, dated 23rd January 2013—The President is pleased  
to permit IC-31712 Maj Gen P S Ravindranath, SM (Retd) to  
relinquish the appointment of Colonel Commandant of the  
1 Gorkha Rifles with effect from 31 Dec 2012 (A/N)

P K PATTNAYAK  
Dir/MS (X)

## FINANCE DIVISION

No. 63, dated 23rd January 2013—The President is pleased  
to retire Lokendra Nath, Section Officer, Ministry of Defence  
(Finance) from Government Service with effect from  
31.12.2012 (AN) on attaining the age of superannuation

RAVI KATYAL  
Asstt Financial Adviser (E)

## ARMY BRANCH

### MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 64, dated 24th January 2013—On attaining the age  
of superannuation, the following Section Officers retired  
from Government Service and transferred to pension  
establishment from the dates mentioned against their  
respective names :—

B D Prasad, 06 Dec 1951, 31 Dec 2011, 01 Jan 2012

R K Talwar, 25 Dec 1951, 31 Dec 2011, 01 Jan 2012

ABHAY SINGH  
Dy CAO (A)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013